



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 25 अक्टूबर, 2023

कार्तिक 3, 1945 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI. 110001

20th October, 2023,
Dated: 28 Asvina, 1945 (Saka),

NOTIFICATIONS

No. 434/UP. LA/2023:- In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its notification no. 434/UP. LA/2021, dated 2nd July, 2021 as amended from time to time, the Election Commission, hereby designates, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, the officer of the Government specified in column (2) of the Table below as the Returning Officer of the Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh as specified in column (1) of the said Table against such officer:-

TABLE

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
1. Behat	Sub Divisional Officer, Behat
2. Nakur	Sub Divisional Officer, Nakur
3. Saharanpur Nagar	City Magistrate, Saharanpur
4. Saharanpur	Sub Divisional Officer, Saharanpur
5. Deoband	Sub Divisional Officer, Deoband
6. Rampur Maniharan (SC)	Sub Divisional Officer, Rampur Maniharan
7. Gangoh	Addl. Sub Divisional Officer, Saharanpur
8. Kairana	Sub Divisional Officer, Kairana
9. Thana Bhawan	Sub Divisional Officer, Oon
10. Shamli	Sub Divisional Officer, Shamli
11. Budhana	Sub Divisional Officer, Budhana

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
12. Charthawal	Sub Divisional Officer, Sadar, Muzaffarnagar
13. Purqazi (SC)	Deputy Collector (First), Muzaffarnagar
14. Muzaffar Nagar	City Magistrate, Muzaffarnagar
15. Khatauli	Sub Divisional Officer, Khatauli
16. Meerapur	Sub Divisional Officer, Jansath
17. Najibabad	Sub Divisional Officer, Najibabad
18. Nagina (SC)	Sub Divisional Officer (Judicial), Nagina
19. Barhapur	Sub Divisional Officer, Nagina
20. Dhampur	Sub Divisional Officer, Dhampur
21. Nehtaur (SC)	Sub Divisional Officer (Judicial), Dhampur
22. Bijnor	Sub Divisional Officer, Bijnor
23. Chandpur	Sub Divisional Officer, Chandpur
24. Noorpur	Deputy Collector, Bijnor
25. Kanth	Sub Divisional Officer, Kanth
26. Thakurdwara	Sub Divisional Officer, Thakurdwara
27. Moradabad Rural	Sub Divisional Officer, Moradabad
28. Moradabad Nagar	Additional City Magistrate (Second), Moradabad
29. Kundarki	Additional City Magistrate (First), Moradabad
30. Bilari	Sub Divisional Officer, Bilari
31. Chandausi (SC)	Sub Divisional Officer, Chandausi
32. Asmoli	Dy. Collector, Sambhal
33. Sambhal	Sub Divisional Officer, Sambhal
34. Suar	Sub Divisional Officer, Suar
35. Chamraua	Sub Divisional Officer, Tanda
36. Bilaspur	Sub Divisional Officer, Bilaspur
37. Rampur	Sub Divisional Officer, Rampur
38. Milak (SC)	Sub Divisional Officer, Shahabad
39. Dhanaura (SC)	Sub Divisional Officer, Dhanaura
40. Naugawan Sadat	Sub Divisional Officer, Naugawan Sadat
41. Amroha	Sub Divisional Officer, Amroha
42. Hasanpur	Sub Divisional Officer, Hasanpur
43. Siwalkhas	Addl. City Magistrate(Civil Line), Meerut
44. Sardhana	Sub Divisional Officer, Sardhana
45. Hastinapur (SC)	Sub Divisional Officer, Mawana
46. Kithore	Addl.City Magistrate(Brahampuri), Meerut
47. Meerut Cantt.	Addl.City Magistrate(Sadar), Meerut
48. Meerut	City Magistrate, Meerut
49. Meerut South	Sub Divisional Officer, Meerut
50. Chhaprauli	Sub Divisional Officer, Baraut
51. Baraut	Sub Divisional Officer, Baghpat
52. Baghpat	Sub Divisional Officer, Khekra
53. Loni	Sub Divisional Officer, Loni

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
54. Muradnagar	Additional Sub Divisional Officer, Ghaziabad
55. Sahibabad	Sub Divisional Officer, Ghaziabad
56. Ghaziabad	City Magistrate, Ghaziabad
57. Modi Nagar	Sub Divisional Officer, Modinagar
58. Dhaulana	Sub Divisional Officer, Dhaulana
59. Hapur (SC)	Sub Divisional Officer, Hapur
60. Garhmukteshwar	Sub Divisional Officer, Garhmukteshwar
61. Noida	Sub Divisional Officer, Dadri
62. Dadri	Sub Divisional Officer, Sadar, Gautam Buddh Nagar
63. Jewar	Sub Divisional Officer, Jewar
64. Sikandrabad	Sub Divisional Officer, Sikandrabad
65. Bulandshahr	Sub Divisional Officer, Bulandshahr
66. Syana	Sub Divisional Officer, Syana
67. Anupshahr	Sub Divisional Officer, Anoopshahr
68. Debai	Sub Divisional Officer, Debai
69. Shikarpur	Sub Divisional Officer, Shikarpur
70. Khurja (SC)	Sub Divisional Officer, Khurja
71. Khair (SC)	Sub Divisional Officer, Khair
72. Barauli	Sub Divisional Officer, Gabhana
73. Atrauli	Sub Divisional Officer, Atrauli
74. Chharra	Addl. City Magistrate (Second), Aligarh
75. Koil	Sub Divisional Officer, Koil
76. Aligarh	City Magistrate, Aligarh
77. Iglas (SC)	Sub Divisional Officer, Iglas
78. Hathras (SC)	Sub Divisional Officer, Hathras
79. Sadabad	Sub Divisional Officer, Sadabad
80. Sikandra Rao	Sub Divisional Officer, Sikandra Rao
81. Chhata	Sub Divisional Officer, Chhata
82. Mant	Sub Divisional Officer, Mant
83. Goverdhan	Sub Divisional Officer, Goverdhan
84. Mathura	Sub Divisional Officer, Sadar, Mathura
85. Baldev (SC)	Sub Divisional Officer, Mahavan
86. Etmadpur	Sub Divisional Officer, Etmadpur
87. Agra Cantt. (SC)	Addl. City Magistrate (First), Agra
88. Agra South	Addl. City Magistrate (Third), Agra
89. Agra North	Addl. City Magistrate (Second), Agra
90. Agra Rural (SC)	Sub Divisional Officer, Agra
91. Fatehpur Sikri	Sub Divisional Officer, Kirawali
92. Kheragarh	Sub Divisional Officer, Kheragarh
93. Fatehabad	Sub Divisional Officer, Fatehabad
94. Bah	Sub Divisional Officer, Bah
95. Tundla (SC)	Sub Divisional Officer, Tundla

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
96. Jasrana	Sub Divisional Officer, Jasrana
97. Firozabad	Sub Divisional Officer, Firozabad
98. Shikohabad	Sub Divisional Officer, Shikohabad
99. Sirsaganj	Sub Divisional Officer, Sirsaganj
100. Kasganj	Sub Divisional Officer, Kasganj
101. Amanpur	Sub Divisional Officer, Sahawar
102. Patiyali	Sub Divisional Officer, Patiyali
103. Aliganj	Sub Divisional Officer, Aliganj
104. Etah	Sub Divisional Officer, Etah
105. Marhara	Addl. Sub Divisional Officer (First), Etah
106. Jalesar (SC)	Sub Divisional Officer, Jalesar
107. Mainpuri	Sub Divisional Officer, Mainpuri
108. Bhongaon	Sub Divisional Officer, Bhongaon
109. Kishni (SC)	Sub Divisional Officer, Kishni
110. Karhal	Sub Divisional Officer, Karhal
111. Gunnaur	Sub Divisional Officer, Gunnaur
112. Bisauli (SC)	Sub Divisional Officer, Bisauli
113. Sahaswan	Sub Divisional Officer, Sahaswan
114. Bilsa	Sub Divisional Officer, Bilsa
115. Badaun	City Magistrate, Badaun
116. Shekhupur	Sub Divisional Officer, Badaun
117. Dataganj	Sub Divisional Officer, Dataganj
118. Baheri	Sub Divisional Officer, Baheri
119. Meerganj	Sub Divisional Officer, Meerganj
120. Bhojipura	Sub Divisional Officer, Sadar, Bareilly
121. Nawabganj	Sub Divisional Officer, Nawabganj
122. Faridpur (SC)	Sub Divisional Officer, Faridpur
123. Bithari Chainpur	Addl. City Magistrate(Second), Bareilly
124. Bareilly	City Magistrate, Bareilly
125. Bareilly Cantt.	Addl. City Magistrate(First), Bareilly
126. Aonla	Sub Divisional Officer, Aonla
127. Pilibhit	Sub Divisional Officer, Amariya
128. Barkhera	Sub Divisional Officer, Pilibhit
129. Puranpur (SC)	Sub Divisional Officer, Puranpur
130. Bisalpur	Sub Divisional Officer, Bisalpur
131. Katra	Sub Divisional Officer, Kalan
132. Jalalabad	Sub Divisional Officer, Jalalabad
133. Tilhar	Sub Divisional Officer, Tilhar
134. Powayan (SC)	Sub Divisional Officer, Powayan
135. Shahjahanpur	City Magistrate, Shahjahanpur
136. Dadraul	Sub Divisional Officer, Sadar, Shahjahanpur
137. Palia	Sub Divisional Officer, Palia

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
138. Nighasan	Sub Divisional Officer, Nighasan
139. Gola Gokrannath	Sub Divisional Officer, Gola Gokrannath
140. Srinagar (SC)	Additional Sub Divisional Officer, Lakhimpur
141. Dhaurahra	Sub Divisional Officer, Dhaurahra
142. Lakhimpur	Sub Divisional Officer, Lakhimpur
143. Kasta (SC)	Sub Divisional Officer, Mitauli
144. Mohammdi	Sub Divisional Officer, Mohammadi
145. Maholi	Sub Divisional Officer, Maholi
146. Sitapur	City Magistrate, Sitapur
147. Hargaon (SC)	Sub Divisional Officer, Sitapur
148. Laharpur	Sub Divisional Officer, Laharpur
149. Biswan	Sub Divisional Officer, Biswan
150. Sevata	Extra Magistrate (First), Sitapur
151. Mahmoodabad	Sub Divisional Officer, Mahmoodabad
152. Sidhuli (SC)	Sub Divisional Officer, Sidhuli
153. Misrikh (SC)	Sub Divisional Officer, Mishrikh
154. Sawayazpur	Sub Divisional Officer, Sawayazpur
155. Shahabad	Sub Divisional Officer, Shahabad
156. Hardoi	Sub Divisional Officer, Hardoi
157. Gopamau (SC)	Extra Magistrate (Dy. Collector) First, Hardoi
158. Sandi (SC)	Extra Magistrate (Dy. Collector) Second, Hardoi
159. Bilgram. Mallanwan	Sub Divisional Officer, Bilgram
160. Balamau (SC)	Sub Divisional Officer (Judicial), Sandila
161. Sandila	Sub Divisional Officer, Sandila
162. Bangermau	Sub Divisional Officer, Bangermau
163. Safipur (SC)	Sub Divisional Officer, Safipur
164. Mohan (SC)	Sub Divisional Officer, Hasanganj
165. Unnao	Sub Divisional Officer, Unnao
166. Bhagwant Nagar	Sub Divisional Officer, Bighapur
167. Purwa	Sub Divisional Officer, Purwa
168. Malihabad (SC)	Sub Divisional Officer, Malihabad
169. Bakshi Kaa Talab	Sub Divisional Officer, Bakshi Ka Talab
170. Sarojini Nagar	Sub Divisional Officer, Sarojininagar
171. Lucknow West	Addl. City Magistrate (Second), Lucknow
172. Lucknow North	Addl. City Magistrate (Fifth), Lucknow
173. Lucknow East	Addl. City Magistrate (Fourth), Lucknow
174. Lucknow Central	Sub Divisional Officer, Sadar, Lucknow
175. Lucknow Cantt.	Addl. City Magistrate (Third), Lucknow
176. Mohanlalganj (SC)	Sub Divisional Officer, Mohanlalganj
177. Bachhrawan (SC)	Sub Divisional Officer, Maharajganj, Rae Bareli
178. Tiloi	Sub Divisional Officer, Tiloi
179. Harchandpur	Sub Divisional Officer, Lalganj, Rae Bareli

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
180. Rae Bareli	Sub Divisional Officer, Sadar, Rae Bareli
181. Salon (SC)	Sub Divisional Officer, Salon
182. Sareni	Sub Divisional Officer, Dalmau
183. Unchahar	Sub Divisional Officer, Unchahar
184. Jagdishpur (SC)	Sub Divisional Officer, Musafirkhana
185. Gauriganj	Sub Divisional Officer, Gauriganj
186. Amethi	Sub Divisional Officer, Amethi
187. Isauli	Sub Divisional Officer, Baldirai
188. Sultanpur	Sub Divisional Officer, Sadar, Sultanpur
189. Sadar	Sub Divisional Officer, Jaisinghpur
190. Lambhua	Sub Divisional Officer, Lambhua
191. Kadipur (SC)	Sub Divisional Officer, Kadipur
192. Kaimganj (SC)	Sub Divisional Officer, Kaimganj
193. Amritpur	Sub Divisional Officer, Amritpur
194. Farrukhabad	Sub Divisional Officer, Farrukhabad
195. Bhojpur	Additional Sub Divisional Officer, Farrukhabad
196. Chhibramau	Sub Divisional Officer, Chhibramau
197. Tirwa	Sub Divisional Officer, Tirwa
198. Kannauj (SC)	Sub Divisional Officer, Kannauj
199. Jaswantnagar	Sub Divisional Officer, Jaswant Nagar
200. Etawah	Sub Divisional Officer, Etawah
201. Bharthana (SC)	Sub Divisional Officer, Bharthana
202. Bidhuna	Sub Divisional Officer, Bidhuna
203. Dibiyapur	Sub Divisional Officer, Ajitmal
204. Auraiya (SC)	Sub Divisional Officer, Auraiya
205. Rasulabad (SC)	Sub Divisional Officer, Rasulabad
206. Akbarpur . Raniya	Sub Divisional Officer, Akbarpur
207. Sikandra	Sub Divisional Officer, Sikandra
208. Bhognipur	Sub Divisional Officer, Bhognipur
209. Billhaur (SC)	Sub Divisional Officer, Billhaur
210. Bithoor	Sub Divisional Officer, Sadar, Kanpur Nagar
211. Kalyanpur	Additional City Magistrate (Sixth), Kanpur Nagar
212. Govindnagar	Additional City Magistrate (Seventh), Kanpur Nagar
213. Sishamau	Additional City Magistrate (Third), Kanpur Nagar
214. Arya Nagar	Additional City Magistrate (Fourth), Kanpur Nagar
215. Kidwai Nagar	Additional City Magistrate (First), Kanpur Nagar
216. Kanpur Cantt.	Additional City Magistrate (Second), Kanpur Nagar
217. Maharajpur	Sub Divisional Officer, Narval
218. Ghatampur (SC)	Sub Divisional Officer, Ghatampur
219. Madhaugarh	Sub Divisional Officer, Madhaugarh
220. Kalpi	Sub Divisional Officer, Kalpi
221. Orai (SC)	Sub Divisional Officer, Orai

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
222. Babina	Sub Divisional Officer, Moth
223. Jhansi Nagar	Sub Divisional Officer, Jhansi
224. Mauranipur (SC)	Sub Divisional Officer, Mauranipur
225. Garautha	Sub Divisional Officer, Garautha
226. Lalitpur	Sub Divisional Officer, Lalitpur
227. Mehroni (SC)	Sub Divisional Officer, Mehroni
228. Hamirpur	Sub Divisional Officer, Hamirpur
229. Rath (SC)	Sub Divisional Officer, Rath
230. Mahoba	Sub Divisional Officer, Mahoba
231. Charkhari	Sub Divisional Officer, Kulpahar
232. Tindwari	Sub Divisional Officer, Pailani
233. Baberu	Sub Divisional Officer, Baberu
234. Naraini (SC)	Sub Divisional Officer, Naraini
235. Banda	Sub Divisional Officer, Banda
236. Chitrakoot	Sub Divisional Officer, Karwi
237. Manikpur	Sub Divisional Officer, Mau
238. Jahanabad	Addl. Sub Divisional Officer(Second), Fatehpur
239. Bindki	Sub Divisional Officer, Bindki
240. Fatehpur	Sub Divisional Officer, Fatehpur
241. Ayah Shah	Addl. Sub Divisional Officer(First), Fatehpur
242. Husainganj	Settlement Officer Consolidation, Fatehpur
243. Khaga (SC)	Sub Divisional Officer, Khaga
244. Rampur Khas	Sub Divisional Officer, Lalganj, Pratapgarh
245. Babaganj (SC)	Addl. Sub Divisional Officer (First), Pratapgarh
246. Kunda	Sub Divisional Officer, Kunda
247. Vishwanathganj	Sub Divisional Officer(Judicial), Sadar, Pratapgarh
248. Pratapgarh	Sub Divisional Officer, Pratapgarh
249. Patti	Sub Divisional Officer, Patti
250. Raniganj	Sub Divisional Officer, Raniganj
251. Sirathu	Sub Divisional Officer, Sirathu
252. Manjhanpur (SC)	Sub Divisional Officer, Manjhanpur
253. Chail	Sub Divisional Officer, Chail
254. Phaphamau	Addl. City Magistrate (Third), Prayagraj
255. Soraon (SC)	Sub Divisional Officer, Soraon
256. Phulpur	Sub Divisional Officer, Phulpur
257. Pratappur	Special Land Acquisition Officer (Joint Organizations), Prayagraj
258. Handia	Sub Divisional Officer, Handia
259. Meja	Sub Divisional Officer, Meja
260. Karachhana	Sub Divisional Officer, Karchhana
261. Allahabad West	Sub Divisional Officer, Sadar, Prayagraj
262. Allahabad North	Additional Sub Divisional Officer, Sadar, Prayagraj
263. Allahabad South	Additional City Magistrate (Second), Prayagraj

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
264. Bara (SC)	Sub Divisional Officer, Bara
265. Koraon (SC)	Sub Divisional Officer, Koraon
266. Kursi	Sub Divisional Officer, Fatehpur
267. Ram Nagar	Sub Divisional Officer, Ramnagar
268. Barabanki	Sub Divisional Officer, Nawabganj
269. Zaidpur (SC)	Extra Magistrate (First), Barabanki
270. Dariyabad	Sub Divisional Officer, Ramsanehighat
271. Rudauli	Sub Divisional Officer, Rudauli
272. Haidergarh (SC)	Sub Divisional Officer, Haidergarh
273. Milkipur (SC)	Sub Divisional Officer, Milkipur
274. Bikapur	Sub Divisional Officer, Sohawal
275. Ayodhya	Sub Divisional Officer, Sadar, Ayodhya
276. Goshainganj	Sub Divisional Officer, Bikapur
277. Katehari	Sub Divisional Officer, Bhati
278. Tanda	Sub Divisional Officer, Tanda
279. Alapur (SC)	Sub Divisional Officer, Alapur
280. Jalalpur	Sub Divisional Officer, Jalalpur
281. Akbarpur	Sub Divisional Officer, Akbarpur, Ambedkar Nagar
282. Balha (SC)	Sub Divisional Officer, Mihipurwa (Motipur)
283. Nanpara	Sub Divisional Officer, Nanpara
284. Matera	Extra Magistrate(First), Bahraich
285. Mahasi	Sub Divisional Officer, Mahsi
286. Bahraich	Sub Divisional Officer, Bahraich
287. Payagpur	Sub Divisional Officer, Payagpur
288. Kaiserganj	Sub Divisional Officer, Kaiserganj
289. Bhinga	Sub Divisional Officer, Bhinga
290. Shrawasti	Sub Divisional Officer, Ikauna
291. Tulsipur	Additional Sub Divisional Officer, Balrampur
292. Gainsari	Sub Divisional Officer, Tulsipur
293. Utraula	Sub Divisional Officer, Utraula
294. Balrampur (SC)	Sub Divisional Officer, Balrampur
295. Mehnaun	Sub Divisional Officer, Judicial, Tarabganj
296. Gonda	Sub Divisional Officer, Gonda
297. Katra Bazar	Addl. Sub Divisional Officer (Second), Gonda
298. Colonelganj	Sub Divisional Officer, Colonelganj
299. Tarabganj	Sub Divisional Officer, Tarabganj
300. Mankapur (SC)	Addl. Sub Divisional Officer (First), Gonda
301. Gaura	Sub Divisional Officer, Mankapur
302. Shohratgarh	Sub Divisional Officer, Shoharatgarh
303. Kapilvastu (SC)	Sub Divisional Officer, Naugarh
304. Bansi	Sub Divisional Officer, Bansi
305. Itwa	Sub Divisional Officer, Itwa

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
306. Domariyaganj	Sub Divisional Officer, Domariyaganj
307. Harraiya	Sub Divisional Officer, Harraiya
308. Kaptanganj	Sub Divisional Officer, Rudhauri
309. Rudhauri	Sub Divisional Officer, Bhanpur
310. Basti Sadar	Sub Divisional Officer, Basti
311. Mahadewa (SC)	Addl. Sub Divisional Officer, Basti
312. Menhdawal	Sub Divisional Officer, Menhdawal
313. Khalilabad	Sub Divisional Officer, Khalilabad
314. Dhanghata (SC)	Sub Divisional Officer, Dhanghata
315. Pharenda	Sub Divisional Officer, Pharenda
316. Nautanwa	Sub Divisional Officer, Nautanwa
317. Siswa	Sub Divisional Officer, Nichlaul
318. Maharajganj (SC)	Sub Divisional Officer, Sadar, Maharajganj
319. Paniyara	Additional Sub Divisional Officer, Sadar, Maharajganj
320. Caimpiyarganj	Sub Divisional Officer, Caimpiyarganj
321. Pipraich	Additional Sub Divisional Officer, Sadar, Gorakhpur
322. Gorakhpur Urban	Sub Divisional Officer, Sadar, Gorakhpur
323. Gorakhpur Rural	Additional City Magistrate, Gorakhpur
324. Sahajanwa	Sub Divisional Officer, Sahjanwa
325. Khajani (SC)	Sub Divisional Officer, Khajani
326. Chauri. Chaura	Sub Divisional Officer, Chauri. Chaura
327. Bansaon (SC)	Sub Divisional Officer, Bansaon
328. Chillupar	Sub Divisional Officer, Gola
329. Khadda	Sub Divisional Officer, Khadda
330. Padrauna	Sub Divisional Officer, Padrauna
331. Tamkuhi Raj	Sub Divisional Officer, Tamkuhiraj
332. Fazilnagar	Sub Divisional Officer (Judicial), Kasia
333. Kushinagar	Sub Divisional Officer, Kasia
334. Hata	Sub Divisional Officer, Hata
335. Ramkola (SC)	Sub Divisional Officer, Kaptanganj
336. Rudrapur	Sub Divisional Officer, Rudrapur
337. Deoria	Sub Divisional Officer, Deoria
338. Pathardeva	Addl. Sub Divisional Officer, Deoria
339. Rampur Karkhana	Addl. Sub Divisional Officer, Salempur
340. Bhatpar Rani	Sub Divisional Officer, Bhatpar Rani
341. Salempur (SC)	Sub Divisional Officer, Salempur
342. Barhaj	Sub Divisional Officer, Barhaj
343. Atrauliya	Sub Divisional Officer, Burhanpur
344. Gopalpur	Sub Divisional Officer (Judicial), Sagri
345. Sagri	Sub Divisional Officer, Sagri
346. Mubarakpur	Sub Divisional Officer (Judicial), Sadar, Azamgarh
347. Azamgarh	Sub Divisional Officer, Sadar, Azamgarh

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
348. Nizamabad	Sub Divisional Officer, Nizamabad
349. Phoolpur. Pawai	Sub Divisional Officer, Phoolpur
350. Didarganj	Sub Divisional Officer, Martinganj
351. Lalganj (SC)	Sub Divisional Officer, Lalganj, Azamgarh
352. Mehnagar (SC)	Sub Divisional Officer, Mehnagar
353. Madhuban	Sub Divisional Officer, Madhuban
354. Ghosi	Sub Divisional Officer, Ghosi
355. Muhammadabad. Gohna (SC)	Sub Divisional Officer, Muhammadabad Gohana
356. Mau	Sub Divisional Officer, Sadar, Mau
357. Belthara Road (SC)	Sub Divisional Officer, Belthara Road
358. Rasara	Sub Divisional Officer, Rasara
359. Sikanderpur	Sub Divisional Officer, Sikanderpur
360. Phephana	Additional Sub Divisional Officer, Ballia
361. Ballia Nagar	Sub Divisional Officer, Ballia
362. Bansdih	Sub Divisional Officer, Bansdih
363. Bairia	Sub Divisional Officer, Bairia
364. Badlapur	Sub Divisional Officer, Badlapur
365. Shahganj	Sub Divisional Officer, Shahganj
366. Jaunpur	City Magistrate, Jaunpur
367. Malhani	Sub Divisional Officer, Sadar, Jaunpur
368. Mungra Badshahpur	Additional Sub Divisional Officer(First), Jaunpur
369. Machhlishahr (SC)	Sub Divisional Officer, Machhlishahr
370. Mariyahu	Sub Divisional Officer, Mariyahu
371. Zafrabad	Additional Sub Divisional Officer(Second), Jaunpur
372. Kerakat (SC)	Sub Divisional Officer, Kerakat
373. Jakhania (SC)	Sub Divisional Officer, Jakhania
374. Saidpur (SC)	Sub Divisional Officer, Saidpur
375. Ghazipur	Sub Divisional Officer, Ghazipur
376. Jangipur	Addl. Sub Divisional Officer, Sadar, Ghazipur
377. Zahoorabad	Sub Divisional Officer, Kasimabad
378. Mohammadabad	Sub Divisional Officer, Mohammadabad
379. Zamania	Sub Divisional Officer, Zamania
380. Mughalsarai	Sub Divisional Officer, Pandit Deendayal Upadhyay Nagar, Chandauli
381. Sakaldiha	Sub Divisional Officer, Sakaldiha
382. Saiyadraja	Sub Divisional Officer, Chandauli
383. Chakia (SC)	Sub Divisional Officer, Chakia
384. Pindra	Sub Divisional Officer, Pindra
385. Ajagara (SC)	Deputy Collector First, Varanasi
386. Shivpur	Sub Divisional Officer, Sadar, Varanasi
387. Rohaniya	Addl. City Magistrate(Second), Varanasi
388. Varanasi North	Deputy Collector (Second), Varanasi

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officers
1	2
389. Varanasi South	Addl. City Magistrate(Third), Varanasi
390. Varanasi Cantt.	Addl. City Magistrate(First), Varanasi
391. Sevapuri	Sub Divisional Officer, Rajatalab, Varanasi
392. Bhadohi	Sub Divisional Officer, Bhadohi
393. Gyanpur	Sub Divisional Officer, Gyanpur
394. Aurai (SC)	Sub Divisional Officer, Aurai
395. Chhanbey (SC)	Sub Divisional Officer, Lalganj, Mirzapur
396. Mirzapur	City Magistrate, Mirzapur
397. Majhawan	Sub Divisional Officer, Sadar, Mirzapur
398. Chunar	Sub Divisional Officer, Chunar
399. Marihan	Sub Divisional Officer, Marihan
400. Ghorawal	Sub Divisional Officer, Ghorawal
401. Robertsganj	Sub Divisional Officer, Robertsganj
402. Obra (ST)	Sub Divisional Officer, Obra
403. Duddhi (ST)	Sub Divisional Officer, Duddhi

No. 434/UP. LA/2023(1): – In exercise of powers conferred by sub. section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification no. 434/UP. LA/2021(1), dated the 2nd July, 2021, the Election Commission hereby appoints the Officer/Officers of the Government as specified in column (2) of the Table below, as Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh specified in column (1) of the said Table against such Officer or Officers of Government in the performance of the function of such Returning Officer..

TABLE

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
1. Behat	1. Tehsildar, Behat
	2. Nayab Tehsildar, Behat
	3. Block Development Officer, Muzaffarabad
	4. Block Education Officer, Muzaffarabad
2. Nakur	1. Nayab Tehsildar, Nakur
	2. Food Safety Officer, Nakur
	3. Child Development Project Officer, Nakur
	4. Block Education Officer, Nakur
3. Saharanpur Nagar	1. Tehsildar, Saharanpur
	2. Nayab Tehsildar, Saharanpur
	3. District Programme Officer, Saharanpur
	4. Block Education Officer, Baliakheri
4. Saharanpur	1. Nayab Tehsildar, Haroda
	2. Nayab Tehsildar, Punwarka
	3. Block Development Officer, Punwarka
	4. Block Education Officer, Punwarka

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
5. Deoband	1. Tehsildar, Deoband
	2. Nayab Tehsildar, Deoband
	3. Block Development Officer, Deoband
	4. Block Education Officer, Deoband
6. Rampur Maniharan (SC)	1. Tehsildar, Rampur Maniharan
	2. Nayab Tehsildar, Rampur Maniharan
	3. Block Development Officer, Rampur Maniharan
	4. Block Education Officer, Rampur Maniharan
7. Gangoh	1. Tehsildar, Nakur
	2. Nayab Tehsildar, Gangoh
	3. Block Development Officer, Nanauta
	4. Block Education Officer, Gangoh
8. Kairana	1. Tehsildar, Kairana
	2. Nayab Tehsildar, Kairana
	3. Block Development Officer, Kairana
9. Thana Bhawan	1. Tehsildar, Oon
	2. Nayab Tehsildar, Oon
	3. Block Development Officer, Oon
10. Shamli	1. Tehsildar, Shamli
	2. Nayab Tehsildar, Shamli
	3. Block Development Officer, Shamli
11. Budhana	1. Tehsildar, Budhana
	2. Block Development Officer, Shahpur
	3. Block Development Officer, Budhana
12. Charthawal	1. Block Development Officer, Sadar, Muzaffar Nagar
	2. Assistant Commissioner and Assistant Registrar of Co-operative, Muzaffar Nagar
	3. Block Development Officer, Charthawal
13. Purqazi (SC)	1. Tehsildar, Sadar, Muzaffar Nagar
	2. District Social Welfare Officer, Muzaffar Nagar
	3. Nayab Tehsildar, Purqazi
14. Muzaffar Nagar	1. District Sugarcane Officer, Muzaffar Nagar
	2. District Agricultural Officer, Muzaffar Nagar
	3. District Economics and Statistical Officer. First, Muzaffar Nagar
	4. Nayab Tehsildar, City, Muzaffar Nagar
15. Khatauli	1. Tehsildar, Khatauli
	2. Block Development Officer, Khatauli
	3. Nayab Tehsildar, Khatauli
16. Meerapur	1. Tehsildar, Jansath
	2. Block Development Officer, Jansath
	3. District Training Officer, Jansath
17. Najibabad	1. Tehsildar, Najibabad
	2. Block Development Officer, Najibabad
18. Nagina (SC)	1. Tehsildar, Nagina
	2. Block Development Officer, Kiratpur
19. Barhapur	1. Block Development Officer, Afzalgarh
	2. Block Development Officer, Kotwali
20. Dhampur	1. Block Development Officer, Alhaipur Dhampur

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
	2. Block Development Officer, Seohara
21. Nehtaur (SC)	1. Tehsildar, Dhampur
	2. Block Development Officer, Anku Nahtaur
22. Bijnor	1. Tehsildar, Bijnor
	2. Block Development Officer, Mohd.Pur Devmal
23. Chandpur	1. Block Development Officer, Jalilpur
	2. Block Development Officer, Haldaur
24. Noorpur	1. Tehsildar, Chandpur
	2. Block Development Officer, Nurpur
25. Kanth	1. Tehsildar, Kanth
	2. Block Development Officer, Chhajlait
	3. Consolidation Officer, Third, Moradabad
	4. Block Education Officer, Chhajlait
26. Thakurdwara	1. Tehsildar, Thakurdwara
	2. Block Development Officer, Thakurdwara
	3. Block Development Officer, Dilari
	4. Block Education Officer, Thakurdwara
27. Moradabad Rural	1. Tehsildar(Judicial), Moradabad
	2. Block Development Officer, Bhagatpur Tanda
	3. Consolidation Officer, First, Moradabad
	4. Block Education Officer, Moradabad
28. Moradabad Nagar	1. Tehsildar, Sadar, Moradabad
	2. Block Development Officer, Moradabad
	3. Consolidation Officer, Second, Moradabad
	4. Block Education Officer (City), Moradabad
29. Kundarki	1. Tehsildar (Judicial), Bilari
	2. Block Development Officer, Kundarki
	3. Block Education Officer, Mundapandey
	4. Block Education Officer, Kundarki
30. Bilari	1. Tehsildar, Bilari
	2. Block Development Officer, Bilari
	3. Block Education Officer, Bilari
	4. Food Safety Officer, Bilari
	5. Nayab Tehsildar, Chandausi
31. Chandausi (SC)	1. Tehsildar, Chandausi
	2. Block Development Officer, Baniyakhera
	3. Block Development Officer, Bahjoi
32. Asmoli	1. Tehsildar, Sambhal
	2. Block Development Officer, Pawansa
	3. Block Development Officer, Asmoli
33. Sambhal	1. Nayab Tehsildar, Sambhal
	2. Block Development Officer, Sambhal
	3. Consolidation Officer (First), Sambhal
34. Suar	1. Tehsildar, Suar
	2. Nayab Tehsildar, Suar
	3. Block Development Officer, Suar
35. Chamraua	1. Tehsildar, Tanda
	2. Block Development Officer, Saidnagar
	3. Nayab Tehsildar, Tanda
36. Bilaspur	1. Tehsildar, Bilaspur
	2. Block Development Officer, Bilaspur
	3. Nayab Tehsildar, Bilaspur

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
37. Rampur	1. Tehsildar, Rampur
	2. Block Development Officer, Chamraua
	3. Nayab Tehsildar, Sadar
38. Milak (SC)	1. Tehsildar, Shahabad
	2. Tehsildar, Milak
	3. Nayab Tehsildar, Milak
39. Dhanaura (SC)	1. Tehsildar, Dhanaura
	2. Block Development Officer, Dhanaura
	3. Block Development Officer, Gajraula
	4. Nayab Tehsildar, Dhanaura
40. Naugawan Sadat	1. Tehsildar, Naugawan Sadat
	2. Block Development Officer, Amroha
	3. Consolidation Officer, Dhanaura
	4. Nayab Tehsildar, Hasanpur
41. Amroha	1. Tehsildar, Amroha
	2. Block Development Officer, Joya
	3. Nayab Tehsildar, Amroha
	4. Nayab Tehsildar, Kailsa
42. Hasanpur	1. Tehsildar, Hasanpur
	2. Block Development Officer, Hasanpur
	3. Consolidation Officer, Hasanpur
	4. Nayab Tehsildar, Rehra
43. Siwalkhas	1. Tehsildar (Judicial), Sardhana
	2. Nayab Tehsildar, First, Tehsil. Meerut
	3. Block Development Officer, Jani Khurd
44. Sardhana	1. Tehsildar, Sardhana
	2. Nayab Tehsildar, Sardhana, Tehsil. Sardhana
	3. Block Development Officer, Sardhana
45. Hastinapur (SC)	1. Tehsildar, Mawana
	2. Nayab Tehsildar, Hastinapur, Tehsil. Mawana
	3. Block Development Officer, Hastinapur
46. Kithore	1. Nayab Tehsildar, Kithore, Tehsil. Mawana
	2. Nayab Tehsildar, Six, Tehsil. Meerut
	3. Block Development Officer, Machhra
47. Meerut Cantt.	1. Nayab Tehsildar, Third, Tehsil Meerut
	2. Nayab Tehsildar, Saroorpur Khurd, Tehsil. Sardhana
	3. Block Development Officer, Rajpura
48. Meerut	1. Nayab Tehsildar. Second, Tehsil. Meerut
	2. Nayab Tehsildar. Fourth, Tehsil. Meerut
	3. Block Development Officer, Meerut
49. Meerut South	1. Nayab Tehsildar. Fifth, Tehsil. Meerut
	2. Block Development Officer, Daurala
	3. Block Development Officer, Kharkhauda
50. Chhaprauli	1. Tehsildar, Baraut
	2. Nayab Tehsildar, Baraut
	3. Block Development Officer, Binauli

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
51. Baraut	1. Tehsildar, Baghpat 2. Nayab Tehsildar, Baghpat 3. Block Development Officer, Baghpat
52. Baghpat	1. Tehsildar, Khekra 2. Nayab Tehsildar, Khekra 3. Block Development Officer, Khekra
53. Loni	1. Tehsildar, Loni 2. Block Development Officer, Loni 3. Block Education Officer, Loni 4. Food Safety Officer, Loni
54. Muradnagar	1. Tehsildar, Ghaziabad 2. Block Development Officer, Muradnagar 3. Block Education Officer, Muradnagar 4. Nayab Tehsildar, Modinagar
55. Sahibabad	1. Tehsildar (Judicial), Ghaziabad 2. Block Development Officer, Razapur 3. District Agriculture Officer, Ghaziabad 4. Block Education Officer, Razapur 5. Deputy Director, Agriculture, Ghaziabad 6. Deputy Chief Veterinary Officer, Ghaziabad 7. District Social Welfare Officer (Development), Ghaziabad 8. Assistant Registrar, Co. operative Societies, Ghaziabad
56. Ghaziabad	1. District Social Welfare Officer, Ghaziabad 2. Nayab Tehsildar, Ghaziabad 3. Backward Class Welfare Officer, Ghaziabad 4. Municipal Education Officer, Vijay Nagar Zone, Ghaziabad
57. Modi Nagar	1. Tehsildar, Modinagar 2. Block Development Officer, Bhojpur 3. Block Education Officer, Bhojpur 4. District Cane Officer, Ghaziabad
58. Dhaulana	1. Tehsildar, Dhaulana 2. Block Development Officer, Dhaulana 3. Nayab Tehsildar, Dhaulana 4. Block Education Officer, Dhaulana 5. Nayab Tehsildar, Ceiling, Ghaziabad 6. District Programme Officer, Ghaziabad
59. Hapur (SC)	1. Tehsildar, Hapur 2. Block Development Officer, Hapur 3. Block Education Officer, Hapur 4. Nayab Tehsildar, Pargana Hapur 5. Nayab Tehsildar, Pargana Babugarh
60. Garhmukteshwar	1. Tehsildar, Garhmukteshwar 2. Nayab Tehsildar, Pargana Pooth 3. Block Development Officer, Garhmukteshwar 4. Block Development Officer, Simbhaoli 5. Block Education Officer, Garhmukteshwar
61. Noida	1. Tehsildar, Dadri 2. Block Development Officer, Bisrakh

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
62. Dadri	1. Tehsildar, Sadar
	2. Block Development Officer, Dadri
63. Jewar	1. Tehsildar, Jewar
	2. Block Development Officer, Jewar
64. Sikandrabad	1. Tehsildar, Sikandrabad
	2. Block Development Officer, Sikandrabad
	3. Block Development Officer, Gulawathi
	4. Block Education Officer, Sikandrabad
	5. Nayab Tehsildar (Chola), Sikandrabad
	6. Child Development Project Officer, Gulawathi
65. Bulandshahr	1. Tehsildar, Bulandshahr
	2. Block Development Officer, Agauta
	3. Block Education Officer, Bulandshahr
	4. Nayab Tehsildar (City), Bulandshahr
	5. Nayab Tehsildar (Aurangabad), Bulandshahr
	6. Consolidation Officer, Bulandshahr
66. Syana	1. Tehsildar, Syana
	2. Block Development Officer, Syana
	3. Block Education Officer, Syana
	4. Nayab Tehsildar (City), Syana
	5. Child Development Project Officer, Syana
67. Anoopshahr	1. Tehsildar, Anoopshahr
	2. Block Development Officer, Anoopshahr
	3. Block Education Officer, Anoopshahr
	4. Nayab Tehsildar, Anoopshahr
	5. District Agriculture Officer, Bulandshahr
68. Debai	1. Tehsildar, Debai
	2. Block Development Officer, Debai
	3. Block Development Officer, Danpur
	4. Block Education Officer, Debai
	5. Block Education Officer, Danpur
69. Shikarpur	1. Tehsildar, Shikarpur
	2. Block Development Officer, Shikarpur
	3. Block Education Officer, Shikarpur
	4. Nayab Tehsildar (City), Shikarpur
	5. Consolidation Officer, Shikarpur
70. Khurja (SC)	1. Tehsildar, Khurja
	2. Block Development Officer, Khurja
	3. Block Education Officer, Khurja
	4. Block Education Officer, Arniya
	5. Nayab Tehsildar (Maina Maujpur), Khurja
	6. Consolidation Officer, Khurja
71. Khair (SC)	1. Tehsildar, Khair
	2. Block Development Officer, Khair
	3. Block Development Officer, Tappal
	4. Block Education Officer, Khair
	5. Block Education Officer, Tappal
72. Barauli	1. Tehsildar, Gabhana
	2. Block Development Officer, Chandaush
	3. Block Education Officer, Chandaush

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
	4. Nayab Tehsildar, Chandaush
	5. Nayab Tehsildar, Barauli
73. Atrauli	1. Block Development Officer, Atrauli
	2. Block Development Officer, Bijauli
	3. Block Education Officer, Atrauli
	4. Block Education Officer, Bijauli
	5. Nayab Tehsildar, Atrauli
74. Chharra	1. Tehsildar, Atrauli
	2. Block Development Officer, Gangiri
	3. Block Development Officer, Akraabad
	4. Block Education Officer, Akraabad
	5. Block Education Officer, Gangiri
75. Koil	1. Block Development Officer, Lodha
	2. Block Education Officer, Lodha
	3. Block Education Officer, Jawan
	4. Nayab Tehsildar, Morthal
	5. Block Education Officer, City Aligarh
76. Aligarh	1. Tehsildar, Koil
	2. Block Development Officer, Dhanipur
	3. Block Development Officer, Jawan
	4. Block Education Officer, Dhanipur
	5. Nayab Tehsildar, Koil
77. Iglas (SC)	1. Tehsildar, Iglas
	2. Block Development Officer, Iglas
	3. Block Development Officer, Gonda
	4. Block Education Officer, Iglas
	5. Block Education Officer, Gonda
78. Hathras (SC)	1. Tehsildar, Hathras
	2. Tehsildar, Sasni
	3. Block Development Officer, Hathras
	4. Block Development Officer, Sasni
79. Sadabad	1. Tehsildar, Sadabad
	2. Block Development Officer, Sadabad
	3. Block Development Officer, Sahpau
	4. Block Development Officer, Mursan
80. Sikandra Rao	1. Tehsildar, Sikandra Rao
	2. Block Development Officer, Sikandra Rao
	3. Block Development Officer, Hasayan
	4. Block Education Officer, Sikandra Rao
81. Chhata	1. Tehsildar, Chhata
	2. Nayab Tehsildar, Nandgaon
	3. Block Development Officer, Nandgaon
82. Mant	1. Tehsildar, Mant
	2. Nayab Tehsildar, Nohajheel
	3. Block Development Officer, Nohajheel
83. Goverdhan	1. Tehsildar, Goverdhan
	2. Nayab Tehsildar, Goverdhan
	3. Block Development Officer, Goverdhan

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
84. Mathura	1. Tehsildar, Sadar, Mathura
	2. Nayab Tehsildar, Farah
	3. Block Education Officer, Mathura (Rural)
85. Baldev (SC)	1. Tehsildar, Mahavan
	2. Nayab Tehsildar, Baldev
	3. Block Development Officer, Raya
86. Etmadpur	1. Tehsildar, Etmadpur
	2. Block Development Officer, Khandoli
	3. Block Development Officer, Etmadpur
	4. Nayab Tehsildar, Etmadpur
87. Agra Cantt. (SC)	1. Tehsildar(Sadar), Agra
	2. Consolidation Officer, Sadar, Agra
	3. District Panchayat Officer, Agra
	4. Nayab Tehsildar, Akola
88. Agra South	1. Block Development Officer, Barauli Ahir
	2. Asstt. Director, Savings, Agra
	3. District Probation Officer, Agra
	4. Nayab Tehsildar, Barauli Ahir
89. Agra North	1. Sub Divisional Forest Officer, Agra
	2. Asstt. Commissioner & Asstt. Registrar, Co. operative, Agra
	3. Block Development Officer, Bichpuri, Agra
	4. Nayab Tehsildar, Kundol
90. Agra Rural (SC)	1. Tehsildar, Judicial, Sadar, Agra
	2. Block Development Officer, Saiyan
	3. Block Development Officer, Akola
	4. Nayab Tehsildar(Judicial), Revenue, Tehsil, Sadar
91. Fatehpur Sikri	1. Tehsildar, Kirawali
	2. Block Development Officer, Fatehpursikri
	3. Block Development Officer, Achchnera
	4. Nayab Tehsildar, Kiraoli
92. Kheragarh	1. Tehsildar, Kheragarh
	2. Block Development Officer, Kheragarh
	3. Block Development Officer, Jagner
	4. Nayab Tehsildar, Kheragarh
93. Fatehabad	1. Tehsildar, Fatehabad
	2. Block Development Officer, Fatehabad
	3. Block Development Officer, Shamshabad
	4. Nayab Tehsildar, Fatehabad
94. Bah	1. Tehsildar, Bah
	2. Block Development Officer, Bah
	3. Block Development Officer, Pinahat
	4. Nayab Tehsildar, Bah
95. Tundla (SC)	1. Tehsildar, Tundla
	2. Block Development Officer, Tundla
	3. Block Education Officer, Tundla
	4. Block Development Officer, Narkhi
96. Jasrana	1. Tehsildar, Jasrana
	2. Block Development Officer, Jasrana
	3. Block Education Officer, Jasrana
	4. Block Development Officer, Eka

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
97. Firozabad	1. Tehsildar, Firozabad
	2. Block Development Officer, Firozabad
	3. Block Education Officer, Firozabad
	4. Assistant Commissioner Registrar Co-operative Societies, Firozabad
98. Shikohabad	1. Tehsildar, Shikohabad
	2. Block Development Officer, Shikohabad
	3. Block Education Officer, Shikohabad
	4. Block Development Officer, Khairgarh
99. Sirsaganj	1. Tahsildar, Sirsaganj
	2. Block Development Officer, Madanpur
	3. Block Development Officer, Araon
	4. Block Education Officer, Madanpur
100. Kasganj	1. Tehsildar, Kasganj
	2. Block Development Officer, Kasganj
	3. Nayab Tehsildar, Kasganj
101. Amanpur	1. Tehsildar, Sahawar
	2. Block Education Officer, Sahawar
	3. Nayab Tehsildar, Sahawar
102. Patiyali	1. Tehsildar, Patiyali
	2. Block Education Officer, Patiyali
	3. Block Development Officer, Ganjdundwara
103. Aliganj	1. Tehsildar, Aliganj
	2. Block Development Officer, Aliganj
104. Etah	1. Block Development Officer, Shitalpur
	2. Block Development Officer, Sakit
105. Marhara	1. Tehsildar, Etah
	2. Block Development Officer, Marahra
106. Jalesar (SC)	1. Tehsildar, Jalesar
	2. Block Development Officer, Jalesar
107. Mainpuri	1. Tehsildar, Mainpuri
	2. Tehsildar, Kurawali
	3. Block Development Officer, Mainpuri
108. Bhongaon	1. Tahsildar, Bhongaon
	2. Block Development Officer, Bewar
	3. Block Development Officer, Sultanganj
109. Kishni (SC)	1. Tehsildar, Kishni
	2. Block Development Officer, Kishni
	3. Block Development Officer, Jagir
110. Karhal	1. Tehsildar, Karhal
	2. Tehsildar, Ghiror
	3. Block Development Officer, Karhal
111. Gunnaur	1. Tehsildar, Gunnaur
	2. Block Development Officer, Gunnaur
	3. Block Development Officer, Rajpura
112. Bisauli (SC)	1. Tehsildar, Bisauli
	2. Block Development Officer, Bisauli
	3. Nayab Tehsildar, Bisauli
113. Sahaswan	1. Tehsildar, Sahaswan
	2. Block Development Officer, Sahaswan
	3. Consolidation Officer, Sahaswan

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
114. Bilsa	1. Tehsildar, Bilsa
	2. Nayab Tehsildar, Bilsa
	3. Nayab Tehsildar, Ughaiti
115. Badaun	1. Tehsildar, Badaun
	2. Block Development Officer, Salarpur
	3. Nayab Tehsildar, Jagat
116. Shekhupur	1. District Programme Officer, Badaun
	2. Nayab Tehsildar, Qadarchowk
	3. Block Development Officer, Qadarchowk
117. Dataganj	1. Tehsildar, Dataganj
	2. Nayab Tehsildar Middle, Dataganj
	3. Block Education Officer, Dataganj
118. Baheri	1. Tehsildar, Baheri
	2. Block Development Officer, Baheri
	3. Nayab Tehsildar, Chaumahla, Baheri
	4. Block Education Officer, Shergarh
	5. Block Education Officer, Baheri
119. Meerganj	1. Tehsildar, Meerganj
	2. Block Development Officer, Meerganj
	3. Nayab Tehsildar, Meerganj
	4. Block Education Officer, Meerganj
	5. Block Education Officer, Fatehganj Pashchimi
120. Bhojipura	1. Tehsildar (Judicial), Baheri
	2. Block Development Officer, Bhojipura
	3. Nayab Tehsildar, Bhojipura Sadar Bareilly
	4. Block Education Officer, Bhojipura
	5. Block Education Officer, Damkhoda
121. Nawabganj	1. Tehsildar, Nawabganj
	2. Block Development Officer, Nawabganj
	3. Nayab Tehsildar, Nawabganj
	4. Block Education Officer, Nawabganj
	5. Block Education Officer, Bhadpura
122. Faridpur (SC)	1. Tehsildar, Faridpur
	2. Block Development Officer, Faridpur
	3. Consolidation Officer, Faridpur
	4. Nayab Tehsildar, Faridpur
	5. Block Education Officer, Faridpur
123. Bithari Chainpur	1. Tehsildar (Judicial), Aonla
	2. Block Development Officer, Bithri Chainpur
	3. Nayab Tehsildar, Rithaura
	4. Block Education Officer, Aalampur Jafarabad
	5. Block Education Officer, Bithri Chainpur
124. Bareilly	1. Tehsildar (Judicial), Bareilly
	2. Block Development Officer, Kyara
	3. Consolidation Officer, Sadar, Second
	4. Block Education Officer, Kyara
	5. Block Education Officer, Nagar Area Zone. 1, Bareilly
125. Bareilly Cantt.	1. Tehsildar, Sadar, Bareilly
	2. Consolidation Officer, Sadar First, Bareilly
	3. Nayab Tehsildar, Chaubari Sadar, Bareilly

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
	4. Block Education Officer, Nagar Area Zone. 2, Bareilly
	5. Block Education Officer, Nagar Area Zone. 3, Bareilly
126. Aonla	1. Tehsildar, Aonla
	2. Block Development Officer, Ramnagar
	3. Nayab Tehsildar, Aonla
	4. Block Education Officer, Majhagavaan
	5. Block Education Officer, Ramnagar
127. Pilibhit	1. Tehsildar, Amaria
	2. Block Development Officer, Amaria
	3. Block Development Officer, Lalauri Kheda
128. Barkhera	1. Tehsildar, Pilibhit
	2. Block Development Officer, Barkhera
	3. Block Development Officer, Marouri
129. Puranpur (SC)	1. Tehsildar, Puranpur
	2. Tehsildar, Kalinagar
	3. Block Development Officer, Puranpur
130. Bisalpur	1. Tehsildar, Bisalpur
	2. Block Development Officer, Bisalpur
	3. Block Development Officer, Bilsanda
131. Katra	1. Tehsildar, Tilhar
	2. Tehsildar, Kalan
	3. Block Development Officer, Jaitipur
	4. Block Education Officer, Kalan
	5. Block Education Officer, Jaitipur
132. Jalalabad	1. Tehsildar, Jalalabad
	2. Block Development Officer, Jalalabad
	3. Block Development Officer, Mirzapur
	4. Block Education Officer, Mirzapur
	5. Consolidation Officer, Jalalabad
133. Tilhar	1. Tehsildar (Judicial), Powayan
	2. Block Development Officer, Tilhar
	3. Block Education Officer, Nigohi
	4. Nayab Tehsildar, Powayan
134. Powayan (SC)	1. Tehsildar, Powayan
	2. Block Development Officer, Powayan
	3. Block Development Officer, Khutar
	4. Block Education Officer, Powayan
	5. Block Education Officer, Banda
135. Shahjahanpur	1. Tehsildar, Sadar, Shahjahanpur
	2. Block Development Officer, Bhawalkhera
	3. Block Development Officer, Madnapur
	4. Block Education Officer, Headquarter
	5. Nayab Tehsildar, Sadar, Shahjahanpur
136. Dadraul	1. Consolidation Officer, Shahjahanpur
	2. Block Development Officer, Dadraul
	3. Block Education Officer, Kant
	4. Block Education Officer, Nagar, Shahjahanpur
137. Palia	1. Tehsildar, Palia
	2. Block Development Officer, Palia
	3. Nayab Tehsildar, Palia

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
	4. Nayab Tehsildar, Bhud, Tehsil. Gola Gokarannath
	5. Block Education Officer, Palia
138. Nighasan	1. Tehsildar, Nighasan
	2. Block Development Officer, Nighasan
	3. Nayab Tehsildar, Khairigarh
	4. Nayab Tehsildar, Nighasan
	5. Block Education Officer, Nighasan
139. Gola Gokarannath	1. Tehsildar, Gola Gokarannath
	2. Nayab Tehsildar, Gola
	3. Block Development Officer, Gola (Kumbhi)
	4. Block Development Officer, Bijua
	5. Block Education Officer, Gola
140. Srinagar (SC)	1. Tehsildar, Lakhimpur
	2. Block Development Officer, Phoolbehar
	3. Nayab Tehsildar, Srinagar
	4. Nayab Tehsildar, Bhud. Srinagar, Tehsil. Lakhimpur
	5. Block Education Officer, Lakhimpur
141. Dhaurahra	1. Tehsildar, Dhaurahra
	2. Nayab Tehsildar, Dhaurahra
	3. Block Development Officer, Dhaurahra
	4. Block Development Officer, Isanagar
	5. Block Education Officer, Dhaurahra
142. Lakhimpur	1. Nayab Tehsildar, Additional Kheri Paila
	2. Nayab Tehsildar, Kheri Paila
	3. Nayab Tehsildar, Kheri (Tehsil. Lakhimpur)
	4. Block Development Officer, Lakhimpur
	5. Block Development Officer, Nakha
143. Kasta (SC)	1. Tehsildar, Mitauli
	2. Nayab Tehsildar, Kasta
	3. Block Development Officer, Mitauli
	4. Block Education Officer, Behjam
	5. Block Education Officer, Mitauli
144. Mohammadi	1. Tehsildar, Mohammadi
	2. Nayab Tehsildar, Mohammadi
	3. Block Development Officer, Mohammadi
	4. Block Development Officer, Pasgavan
	5. Block Education Officer, Pasgavan
145. Maholi	1. Tehsildar, Maholi
	2. Block Development Officer, Maholi
	3. Block Education Officer, Maholi
	4. Block Education Officer, Pisawan
146. Sitapur	1. Tehsildar, Sitapur
	2. Nayab Tehsildar, Hargaon
	3. Block Development Officer, Khairabad
	4. Block Education Officer, Khairabad
147. Hargaon (SC)	1. Block Development Officer, Alia
	2. Block Development Officer, Hargaon
	3. Block Education Officer, Hargaon
	4. Block Education Officer, Parsendi

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
148. Laharpur	1. Tehsildar, Laharpur
	2. Block Development Officer, Laharpur
	3. Nayab Tehsildar, Laharpur
	4. Block Education Officer, Laharpur
149. Biswan	1. Tehsildar, Biswan
	2. Block Development Officer, Biswan
	3. Block Education Officer, Biswan
	4. Block Education Officer, Sakran
150. Sevata	1. Block Development Officer, Reusa
	2. Consolidation Officer, Biswan
	3. Block Education Officer, Reusa
	4. Block Education Officer, Pahla
151. Mahmoodabad	1. Tehsildar, Mahmoodabad
	2. Block Development Officer, Pahla
	3. Block Development Officer, Mahmoodabad
	4. Block Education Officer, Mahmoodabad
152. Sidhauli (SC)	1. Tehsildar, Sidhauli
	2. Block Development Officer, Sidhauli
	3. Block Development Officer, Kasmanda
	4. Block Education Officer, Sidhauli
153. Misrikh (SC)	1. Tehsildar, Mishrikh
	2. Block Development Officer, Mishrikh
	3. Block Development Officer, Machhrehta
	4. Block Education Officer, Mishrikh
154. Sawaijpur	1. Tehsildar, Sawaijpur
	2. Block Development Officer, Bharkhani
	3. Block Development Officer, Harpalpur
155. Shahabad	1. Tehsildar, Shahabad
	2. Block Development Officer, Shahabad
	3. Block Development Officer, Todarpur
156. Hardoi	1. Tehsildar Sadar, Hardoi
	2. Block Development Officer, Sursa
	3. Nayab Tehsildar, Bawan
157. Gopamau (SC)	1. Consolidation Officer, Pihani
	2. Block Development Officer, Tadiyawan
	3. Block Development Officer, Pihani
158. Sandi (SC)	1. Nayab Tehsildar, Sursa
	2. Block Development Officer, Sandi
	3. Assistant Consolidation Officer, Tadiyawan
159. Bilgram. Mallanwan	1. Tehsildar, Bilgram
	2. Block Development Officer, Bilgram
	3. Block Development Officer, Madhauganj
160. Balamau (SC)	1. Consolidation Officer, Sandila
	2. Block Development Officer, Behender
	3. Nayab Tehsildar, Kachhauna
161. Sandila	1. Tehsildar, Sandila
	2. Block Development Officer, Bharawan

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
	3. Block Development Officer, Sandila
162. Bangermau	1. Tehsildar, Bangermau
	2. Block Development Officer, Ganjmuradabad
	3. Block Development Officer, Bangermau
163. Safipur (SC)	1. Tehsildar, Safipur
	2. Block Development Officer, Safipur
	3. Block Development Officer, Miyanganj
164. Mohan (SC)	1. Tehsildar, Hasanganj
	2. Block Development Officer, Hasanganj
	3. Block Development Officer, Auras
165. Unnao	1. Tehsildar, Unnao
	2. Block Development Officer, Sikandarpur Sarosi
	3. Block Development Officer, Sikandarpur Karan
166. Bhagwant Nagar	1. Tehsildar, Bighapur
	2. Block Development Officer, Bighapur
	3. Block Development Officer, Sumerpur
167. Purwa	1. Tehsildar, Purwa
	2. Block Development Officer, Asoha
	3. Block Development Officer, Purwa
168. Malihabad (SC)	1. Tehsildar, Malihabad
	2. Block Development Officer, Malihabad
	3. Block Development Officer, Mall
	4. Block Education Officer, Malihabad
	5. Block Education Officer, Mall
169. Bakshi Kaa Talab	1. Tehsildar, Bakshi Ka Talab
	2. Block Development Officer, Bakshi Ka Talab
	3. Block Development Officer, Chinhat
	4. Block Education Officer, Bakshi Ka Talab
	5. Block Education Officer, Chinhat
170. Sarojini Nagar	1. Tehsildar, Sarojini Nagar
	2. Block Development Officer, Sarojini Nagar
	3. Block Education Officer, Sarojini Nagar
	4. District Assistant Registrar and Cooperative Societies, Lucknow
	5. District Youth Welfare Officer, Lucknow
171. Lucknow West	1. Block Development Officer, Kakori
	2. Block Education Officer, Kakori
	3. District Agriculture Protection Officer, Lucknow
	4. District Probation Officer, Lucknow
	5. Land Conservation Officer, Lucknow
172. Lucknow North	1. Consolidation Officer, Mohanlalganj, Lucknow
	2. Block Education Officer, City Area Zone. 3
	3. District Horticulture Officer, Lucknow
	4. Chief Executive Officer (Fisheries), Lucknow
	5. District Agriculture Officer, Lucknow
173. Lucknow East	1. Block Education Officer, City area Zone. 2
	2. District Program Officer, Lucknow

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
	3. District Backward Classes Welfare Officer, Lucknow
	4. District Social Welfare Officer, Lucknow
	5. District Khadi and Village Industries Officer, Lucknow
174. Lucknow Central	1. Tehsildar, Sadar, Lucknow
	2. Block Education Officer, City area Zone. 4
	3. District Disability Empowerment Officer, Lucknow
	4. Additional Chief Officer, District Panchayat, Lucknow
	5. Chief Food Safety Officer, Lucknow
175. Lucknow Cantt.	1. Block Education Officer, City area Zone. 1
	2. District Food and Marketing Officer, Lucknow
	3. District Minority Welfare Officer, Lucknow
	4. District Social Welfare Officer (Development), Lucknow
	5. Sub Divisional Agricultural Extension Officer, Lucknow
176. Mohanlalganj (SC)	1. Tehsildar, Mohanlalganj
	2. Block Development Officer, Mohanlalganj
	3. Block Development Officer, Gosainganj
	4. Block Education Officer, Mohanlalganj
	5. Block Education Officer, Gosainganj
177. Bachhrawan (SC)	1. Tehsildar, Maharajganj
	2. Nayab Tehsildar, Bachhrawan
	3. Block Development Officer, Maharajganj
	4. Block Education Officer, Bachhrawan
178. Tiloi	1. Tehsildar, Tiloi
	2. Block Development Officer, Tiloi
	3. Block Development Officer, Bahadurpur
179. Harchandpur	1. Tehsildar, Lalganj
	2. Nayab Tehsildar, Sareni
	3. Block Education Officer, Satawan
	4. Block Development Officer, Harchandpur
180. Rae Bareli	1. Tehsildar, Sadar, Rae Bareli
	2. Nayab Tehsildar, West
	3. Block Development Officer, Rahi
	4. Block Education Officer, Rahi
181. Salon (SC)	1. Tehsildar, Salon
	2. Nayab Tehsildar, Salon
	3. Block Development Officer, Salon
	4. Block Education Officer, Chhatoh
182. Sareni	1. Tehsildar, Dalmau
	2. Nayab Tehsildar, Dalmau
	3. Block Development Officer, Sareni
	4. Block Development Officer, Lalganj
	5. Block Development Officer, Dalmau
183. Unchahar	1. Tehsildar, Unchahar
	2. Nayab Tehsildar, Jagatpur
	3. Block Development Officer, Unchahar
	4. Block Education Officer, Unchahar
184. Jagdishpur (SC)	1. Tehsildar, Musafirkhana
	2. Tehsildar, Sultanpur
	3. Block Development Officer, Musafirkhana
	4. Block Development Officer, Bazarshukul

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
185. Gauriganj	1. Tehsildar, Gauriganj
	2. Block Development Officer, Gauriganj
	3. Block Development Officer, Jamo
186. Amethi	1. Tehsildar, Amethi
	2. Block Development Officer, Amethi
	3. Block Development Officer, Sangrampur
187. Isauli	1. Tehsildar, Baldirai
	2. Block Development Officer, Baldirai
	3. Block Development Officer, Kurwar
	4. Block Education Officer, Kurwar
188. Sultanpur	1. Tehsildar, Sadar
	2. Block Development Officer, Dubepur
	3. Block Development Officer, Kurebhar
	4. Block Education Officer, Kurebhar
189. Sadar	1. Tehsildar, Jaisinghpur
	2. Block Development Officer, Jaisinghpur
	3. Block Development Officer, Motigarpur
	4. Block Education Officer, Jaisinghpur
190. Lambhua	1. Tehsildar, Lambhua
	2. Block Development Officer, Lambhua
	3. Block Development Officer, Bhadaiyan
	4. Child Development Project Officer, Lambhua
191. Kadipur (SC)	1. Tehsildar, Kadipur
	2. Block Development Officer, Kadipur
	3. Block Development Officer, Akhandnagar
	4. Block Education Officer, Kadipur
192. Kaimganj (SC)	1. Tehsildar, Kaimganj
	2. Block Development Officer, Kaimganj
	3. Block Development Officer, Nababganj
	4. Block Education Officer, Kaimganj
	5. Block Education Officer, Shamsabad
193. Amritpur	1. Tehsildar, Amritpur
	2. Block Development Officer, Rajepur
	3. Block Development Officer, Shamsabad
	4. Block Education Officer, Rajepur
	5. Block Education Officer, Nababganj
194. Farrukhabad	1. Nayab Tehsildar, Pahara, Farrukhabad
	2. Block Development Officer, Mohammdabad
	3. Block Development Officer, Barhpur
	4. Block Education Officer, Barhpur
	5. Block Education Officer, City Area, Farrukhabad
195. Bhojpur	1. Tehsildar, Farrukhabad
	2. Block Development Officer, Kamalganj
	3. Consolidation Officer, Khimsepur
	4. Block Education Officer, Mohammdabad
	5. Block Education Officer, Kamalganj

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
196. Chhibramau	1. Tehsildar, Chhibramau
	2. Block Development Officer, Chhibramau
	3. Block Development Officer, Talgram
	4. Block Education Officer, Chhibramau
	5. Nayab Tehsildar, Chhibramau
197. Tirwa	1. Tehsildar, Tirwa
	2. Block Development Officer, Umarda
	3. Block Development Officer, Saurikh
	4. Block Education Officer, Umarda
	5. Nayab Tehsildar, Tirwa
198. Kannauj (SC)	1. Tehsildar, Kannauj
	2. Block Development Officer, Kannauj
	3. Block Development Officer, Gugrapur
	4. Block Education Officer, Kannauj
	5. Nayab Tehsildar, Kannauj
199. Jaswantnagar	1. Tehsildar, Jaswant Nagar
	2. Tehsildar, Saifai
	3. Tehsildar, Takha
200. Etawah	1. Tehsildar, Etawah
	2. Nayab Tehsildar(Pachar), Sadar, Etawah
	3. Block Development Officer, Basrehar
201. Bharthana (SC)	1. Tehsildar, Bharthana
	2. Tehsildar, Chakarnagar
	3. Block Development Officer, Mahewa
202. Bidhuna	1. Tehsildar, Bidhuna
	2. Nayab Tehsildar, Bidhuna
	3. Block Development Officer, Sahar
	4. Block Development Officer, Bidhuna
203. Dibiyaipur	1. Tehsildar, Ajitmal
	2. Nayab Tehsildar, Ajitmal
	3. Nayab Tehsildar, Achhalda
	4. Block Development Officer, Ajitmal
204. Auraiya (SC)	1. Tehsildar, Auraiya
	2. Nayab Tehsildar, Auraiya
	3. Block Development Officer, Auraiya
	4. Consolidation Officer, Hirni Airwa
205. Rasulabad (SC)	1. Tehsildar, Rasulabad
	2. Block Development Officer, Rasulabad
	3. Block Development Officer, Jhinhak
206. Akbarpur Raniyan	1. Tehsildar, Akbarpur
	2. Tehsildar, Maitha
	3. Block Development Officer, Maitha
207. Sikandra	1. Tehsildar, Sikandra
	2. Tehsildar, Derapur
	3. Block Development Officer, Rajpur
208. Bhoganipur	1. Tehsildar, Bhoganipur
	2. Block Development Officer, Sarwankhera
	3. Block Development Officer, Amraudha

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
209. Bilhaur (SC)	1. Tehsildar, Bilhaur 2. Block Development Officer, Bilhaur 3. Block Development Officer, Chaubepur
210. Bithoor	1. Tehsildar, Sadar 2. Consolidation Officer, Sadar 3. Block Development Officer, Vidhanu
211. Kalyanpur	1. District Food Marketing Officer, Kanpur Nagar 2. Deputy Commissioner, Industries, DIC Kanpur Nagar 3. Block Development Officer, Kalyanpur
212. Govindnagar	1. District Backward Classes Welfare Officer, Kanpur Nagar 2. District Minority Welfare Officer, Kanpur Nagar 3. Assistant Commissioner, Trade Tax, Section. 17, Kanpur Nagar
213. Sisamau	1. Apar Mukhya Adhikari, Jila Panchayat, Kanpur Nagar 2. Assistant Commissioner and Assistant Registrar, Cooperative, Kanpur Nagar 3. Assistant Commissioner, Trade Tax, Mobile Squad, Unit. 7, Kanpur Nagar
214. Arya Nagar	1. District Programme Officer, Kanpur Nagar 2. District Probation Officer, Kanpur Nagar 3. Assistant Commissioner, Trade Tax, Sector. 1, Kanpur Nagar
215. Kidwai Nagar	1. District Agriculture Officer, Kanpur Nagar 2. Assistant Commissioner, Trade Tax, Sector . 20, Kanpur Nagar 3. Assistant Commissioner, Trade Tax, Sector . 10, Kanpur Nagar
216. Kanpur Cantt.	1. Consolidation Officer, Ghatampur 2. Soil Conservation Officer, Kanpur Nagar 3. Assistant Commissioner, Commercial Tax, Sector. 22, Kanpur Nagar
217. Maharajpur	1. Tehsildar, Narwal 2. Block Development Officer, Sarsaul 3. Assistant Director, Fisheries, Kanpur Nagar
218. Ghatampur (SC)	1. Tehsildar, Ghatampur 2. District Social Welfare Officer, Kanpur Nagar 3. Block Development Officer, Ghatampur
219. Madhaugarh	1. Tehsildar, Madhaugarh 2. Tehsildar, Konch
220. Kalpi	1. Tehsildar, Kalpi 2. Block Development Officer, Mahewa
221. Orai (SC)	1. Tehsildar, Orai 2. Block Development Officer, Dakour
222. Babina	1. Sub. Divisional Officer, (Judicial), Moth 2. Tehsildar, Moth 3. Block Development Officer, Chirgaon 4. Block Development Officer, Moth 5. Nayab Tehsildar, Moth
223. Jhansi Nagar	1. Sub Divisional Officer, (Judicial), Jhansi 2. Tehsildar, Jhansi 3. Block Development Officer, Baragaon 4. Block Development Officer, Babina 5. Nayab Tehsildar, Jhansi

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
224. Mauranipur (SC)	1. Sub Divisional Officer,(Judicial), Mauranipur
	2. Tehsildar, Mauranipur
	3. Tehsildar, Tehrauli
	4. Block Development Officer, Mauranipur
	5. Block Development Officer, Bangra
225. Garautha	1. Sub Divisional Officer,(Judicial), Garautha
	2. Tehsildar, Garautha
	3. Block Development Officer, Bamour
	4. Block Development Officer, Gursarai
	5. Nayab Tehsildar, Garautha
226. Lalitpur	1. Sub Divisional Officer,Talbehat
	2. Tehsildar, Lalitpur
	3. Tehsildar, Talbehat
227. Mahroni (SC)	1. Tehsildar, Mehroni
	2. Tehsildar, Madawara
	3. Tehsildar, Pali
228. Hamirpur	1. Tehsildar, Hamirpur
	2. Tehsildar, Maudaha
	3. Block Development Officer, Kurara
	4. Block Development Officer, Maudaha
	5. Block Education Officer, Sumerpur
229. Rath (SC)	1. Tehsildar, Sarila
	2. Tehsildar, Rath
	3. Tehsildar, Maudaha
	4. Block Development Officer, Muskara
	5. Block Education Officer, Rath
230. Mahoba	1. Tehsildar, Mahoba
	2. Block Development Officer, Kabrai
231. Charkhari	1. Tehsildar, Charkhari
	2. Tehsildar, Kulpahar
232. Tindwari	1. Tehsildar, Pailani
	2. Tehsildar, Banda
	3. Block Development Officer, Tindwari
	4. Block Development Officer, Jaspura
233. Baberu	1. Tehsildar, Baberu
	2. Block Development Officer, Baberu
	3. Block Development Officer, Kamasin
	4. Block Development Officer, Bisanda
234. Naraini (SC)	1. Tehsildar, Naraini
	2. Tehsildar, Attarra
	3. Block Development Officer, Naraini
	4. Block Development Officer, Mahuwa
235. Banda	1. Tehsildar, Banda
	2. Tehsildar, Aatarra
	3. Tehsildar, Naraini
	4. Block Development Officer, Barokhar khurd
236. Chitrakoot	1. Tehsildar, Karwi
	2. Tehsildar, Rajapur

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
237. Manikpur	1. Tehsildar, Mau 2. Tehsildar, Manikpur
238. Jahanabad	1. Tehsildar, Bindki 2. Block Development Officer, Devmai 3. Block Development Officer, Amauli
239. Bindki	1. Nayab Tehsildar, Bindki 2. Block Development Officer, Khajuha 3. Block Development Officer, Malwan
240. Fatehpur	1. Nayab Tehsildar, City, Fatehpur 2. Block Development Officer, Bhिताura 3. Block Development Officer, Haswa
241. Ayah Shah	1. Tehsildar, Fatehpur 2. Block Development Officer, Asothar 3. Block Development Officer, Bahuwa
242. Husainganj	1. Tehsildar, Khaga 2. Block Development Officer, Airayan 3. Block Development Officer, Hathgam
243. Khaga (SC)	1. Nayab Tehsildar, Airayan 2. Block Development Officer, Dhata 3. Block Development Officer, Vijaipur
244. Rampur Khas	1. Tehsildar, Lalganj 2. Block Development Officer, Lalganj 3. Block Development Officer, Rampur Sangramgarh 4. Consolidation Officer, Sangipur 5. Block Education Officer, Lalganj
245. Babaganj (SC)	1. Tehsildar, Kunda 2. Block Development Officer, Babaganj 3. Nayab Tehsildar, Kunda 4. Block Education Officer, Bihar
246. Kunda	1. Block Development Officer, Kunda 2. Block Development Officer, Kalakakar 3. Consolidation Officer, Kunda 4. Block Education Officer, Kunda
247. Vishwanathganj	1. Tehsildar Sadar, Pratapgarh 2. Block Development Officer, Mandhata 3. Consolidation Officer, Sadar II 4. Block Education Officer, Laxmanpur
248. Pratapgarh	1. Block Development Officer, Sandavachandrika 2. Block Development Officer, Sadar 3. Consolidation Officer, Sadar I 4. Block Education Officer, Mangroua
249. Patti	1. Tehsildar, Patti 2. Block Development Officer, Patti 3. Block Development Officer, Bababelkharnath Dham 4. Block Education Officer, Aspur Devsara 5. Block Education Officer, Bababelkharnath Dham
250. Raniganj	1. Tehsildar, Raniganj 2. Block Development Officer, Gaura 3. Block Development Officer, Shivgarh 4. Block Education Officer, Gaura

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
251 . Sirathu	1. Tehsildar, Sirathu 2. Block Development Officer, Sirathu
252. Manjhanpur (SC)	1. Tehsildar, Manjhanpur 2. Block Development Officer, Manjhanpur
253 . Chail	1. Tehsildar, Chail 2. Block Development Officer, Nevada
254. Phaphamau	1. Tehsildar, Soraon 2. Block Development Officer, Holagarh 3. Block Development Officer, Shringverpur Dham 4. Nayab Tehsildar (Nawabganj) Soraon 5. Block Education Officer, Kaurihar
255. Soraon (SC)	1. Block Development Officer, Mauaima 2. Block Development Officer, Soraon 3. Consolidation Officer, Soraon 4. Nayab Tehsildar (Mirzapur Chauharry) Soraon 5. Block Education Officer, Soraon
256. Phulpur	1. Tehsildar, Phulpur 2. Block Development Officer, Phulpur 3. Block Development Officer, Sahson 4. Nayab Tehsildar, Madhya Phulpur 5. Block Education Officer, Bahadurpur
257. Pratappur	1. Tehsildar, Handia 2. Block Development Officer, Pratappur 3. Block Development Officer, Dhanupur 4. Nayab Tehsildar, Pratappur Handia 5. Block Education Officer, Pratappur
258 . Handia	1. Block Development Officer, Saidabad 2. Block Development Officer, Handia 3. Consolidation Officer, Handia 4. Nayab Tehsildar, Saidabad Handia 5. Block Education Officer, Handia
259 . Meja	1. Tehsildar, Meja 2. Block Development Officer, Meja 3. Block Development Officer, Manda 4. Block Development Officer, Uruwa 5. Block Education Officer, Uruwa
260 . Karchhana	1. Block Development Officer, Chaka 2. Block Development Officer, Karchhana 3. Block Development Officer, Koundhiyara 4. Nayab Tehsildar, Panasa, Karchhana 5. Block Education Officer, Karchhana
261. Allahabad West	1. Block Development Officer, Bahadurpur 2. Block Development Officer, Bahria 3. Block Development Officer, Bhagwatpur 4. Block Education Officer, City First, Prayagraj 5. Nayab Tehsildar, Government Establishment
262. Allahabad North	1. Tehsildar, Sadar, Prayagraj 2. Block Development Officer, Kaudihar 3. Block Education Officer, Headquarters, Prayagraj 4. Block Education Officer, City II, Prayagraj 5. Nayab Tehsildar, Trade Tax

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
263. Allahabad South	1. Tehsildar, Karchhana 2. Consolidation Officer Sadar, Prayagraj 3. Block Education Officer, City III, Prayagraj 4. Nayab Tehsildar, Sealing 5. Nayab Tehsildar (Naini), Karchhana
264. Bara (SC)	1. Tehsildar, Bara 2. Block Development Officer, Shankargarh 3. Block Development Officer, Jasra 4. Nayab Tehsildar, Bara 5. Block Education Officer, Jasra
265. Koraon (SC)	1. Tehsildar, Koraon 2. Block Development Officer, Koraon 3. Block Education Officer, Koraon 4. Nayab Tehsildar, Barokhar, Koraon 5. Nayab Tehsildar, Dia Koraon
266. Kursi	1. Tehsildar, Fatehpur 2. Block Development Officer, Nindura 3. Block Development Officer, Fatehpur 4. Block Education Officer, Suratganj
267. Ram Nagar	1. Tehsildar, Ramnagar 2. Tehsildar, Sirauligaupur 3. Block Development Officer, Ramnagar 4. Block Education Officer, Ramnagar
268. Barabanki	1. Tehsildar (Judicial), Nawabganj 2. Block Development Officer, Banki 3. Block Development Officer, Dewa 4. Block Education Officer, Dewa
269. Zaidpur (SC)	1. Tehsildar, Nawabganj 2. Block Development Officer, Masauli 3. Block Development Officer, Harakh 4. Block Education Officer, Siddhaur
270. Dariyabad	1. Tehsildar, Ramsanehighat 2. Block Development Officer, Dariyabad 3. Block Development Officer, Bunikodar 4. Block Development Officer, Puredalai
271. Rudauli	1. Tehsildar, Rudauli 2. Tehsildar, Ramsanehighat 3. Nayab Tehsildar, Rudauli 4. Block Development Officer, Rudauli 5. Block Development Officer, Mavai
272. Haidergarh (SC)	1. Tehsildar, Haidergarh 2. Block Development Officer, Trivediganj 3. Block Development Officer, Haidergarh 4. Block Education Officer, Haidergarh
273. Milkipur (SC)	1. Tehsildar, Milkipur 2. Nayab Tehsildar, Milkipur 3. Nayab Tehsildar, Amaniganj 4. Block Development Officer, Harringtonganj 5. Block Development Officer, Milkipur

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
274. Bikapur	1. Tehsildar, Sohawal 2. Tehsildar, Bikapur 3. Nayab Tehsildar, Raunahi 4. Nayab Tehsildar, Masauda 5. Block Development Officer, Sohawal 6. Block Development Officer, Bikapur
275. Ayodhya	1. Tehsildar Sadar, Ayodhya 2. Nayab Tehsildar, Ayodhya 3. Nayab Tehsildar, Goshaiganj 4. Block Development Officer, Poorabazar 5. Block Development Officer, Masaudha
276. Goshaiganj	1. Tehsildar, Bikapur 2. Tehsildar, Sadar, Ayodhya 3. Nayab Tehsildar, Shahganj 4. Nayab Tehsildar, Bikapur 5. Block Development Officer, Tarun 6. Block Development Officer, Mayabazar
277. Katehri	1. Tehsildar, Bhiti 2. Block Development Officer, Bhiti
278. Tanda	1. Tehsildar, Tanda 2. Block Development Officer, Tanda
279. Alapur (SC)	1. Tehsildar, Alapur 2. Block Development Officer, Ramnagar
280. Jalalpur	1. Tehsildar, Jalalpur 2. Block Development Officer, Jalalpur
281. Akbarpur	1. Tehsildar, Akbarpur 2. Block Development Officer, Akbarpur
282. Balha (SC)	1. Tehsildar, Mihipurwa (Motipur) 2. Nayab Tehsildar, Mihipurwa (Motipur) 3. Block Development Officer, Mihipurwa 4. Block Development Officer, Balha 5. Block Education Officer, Mihipurwa
283. Nanpara	1. Tehsildar, Nanpara 2. Nayab Tehsildar, Balha 3. Block Development Officer, Nawabganj 4. Block Development Officer, Shivpur 5. Block Education Officer, Nawabganj
284. Matera	1. Tehsildar, Sadar Bahraich 2. Consolidation Officer, Sadar. I, Bahraich 3. Consolidation Officer, Sadar. III, Bahraich 4. Block Development Officer, Risia 5. Block Education Officer, Risia
285. Mahsi	1. Tehsildar, Mahsi 2. Block Development Officer, Mahsi 3. Block Development Officer, Tejwapur 4. Block Education Officer, Mahsi
286. Bahraich	1. Tehsildar (Judicial), Sadar Bahraich 2. Nayab Tehsildar, Sadar Bahraich 3. Block Development Officer, Chittaura 4. Block Development Officer, Hujurpur 5. Block Education Officer, Chittaura

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
287. Payagpur	1. Tehsildar, Payagpur
	2. Nayab Tehsildar, Payagpur
	3. Block Development Officer, Visheshwarganj
	4. Block Development Officer, Payagpur
	5. Block Education Officer, Payagpur
288. Kaiserganj	1. Tehsildar, Kaiserganj
	2. Nayab Tehsildar, Kaiserganj
	3. Nayab Tehsildar, Jarwal
	4. Block Development Officer, Phakharpur
	5. Block Education Officer, Jarwal
289. Bhinga	1. Tehsildar, Bhinga
	2. Block Development Officer, Hariharpurani
	3. Block Development Officer, Sirsia
	4. Block Development Officer, Jamunaha
290. Shrawasti	1. Tehsildar, Ikauna
	2. Tehsildar, Jamunha
	3. Block Development Officer, Gilaula
	4. Block Development Officer, Ikauna
291. Tulsipur	1. Tehsildar, Tulsipur
	2. Block Development Officer, Haraiya Satgharwa
	3. Block Development Officer, Tulsipur
292. Gainsari	1. Block Development Officer, Pachpedwa
	2. Block Development Officer, Gainsari
	3. Nayab Tehsildar, Tulsipur
293. Utraula	1. Tehsildar, Utraula
	2. Block Development Officer, Utraula
	3. Nayab Tehsildar, Utraula
294. Balrampur (SC)	1. Tehsildar, Balrampur
	2. Block Development Officer, Balrampur
	3. Nayab Tehsildar, Balrampur
295. Mehnaun	1. Tehsildar, Gonda
	2. Consolidation Officer, Gonda
296. Gonda	1. Tehsildar (Judicial), Gonda
	2. Block Development Officer, Pandrikripal
297. Katra Bazar	1. Tehsildar, Colonelganj
	2. Block Development Officer, Katrabazar
298. Colonelganj	1. Block Development Officer, Colonelganj
	2. Block Development Officer, Haldharmau
299. Tarabganj	1. Tehsildar, Tarabganj
	2. Block Development Officer, Tarabganj
300. Mankapur (SC)	1. Tehsildar, Mankapur
	2. Block Development Officer, Mankapur
301. Gaura	1. Block Development Officer, Wazirganj
	2. Block Development Officer, Babhanjot
302. Shohratgarh	1. Tehsildar, Shohratgarh
	2. Nayab Tehsildar, Shohratgarh
	3. Block Development Officer, Shohratgarh

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
303 . Kapilvastu (SC)	1. Tehsildar, Naugarh 2. Nayab Tehsildar, Naugarh 3. Block Development Officer, Naugarh
304. Bansi	1. Tehsildar, Bansi 2. Nayab Tehsildar, Bansi 3. Block Development Officer, Bansi
305. Itwa	1. Tehsildar, Itwa 2. Nayab Tehsildar, Itwa 3. Block Development Officer, Itwa
306. Domariaganj	1. Tahsildar, Domariaganj 2. Nayab Tehsildar, Domariaganj 3. Block Development Officer, Domariaganj
307 . Harraiya	1. Block Development Officer, Harraiya 2. Block Development Officer, Vikramjot 3. Block Development Officer, Parsurampur 4. Block Education Officer, Vikramjot 5. Block Education Officer, Parsurampur
308. Kaptanganj	1. Block Development Officer, Kaptanganj 2. Block Development Officer, Gaur 3. Block Development Officer, Dubauliya 4. Block Education Officer, Kaptanganj 5. Block Education Officer, Dubaulia
309 . Rudhauli	1. Block Development Officer, Saltauwa Gopalpur 2. Block Development Officer, Ramnagar 3. Block Development Officer, Rudhauli 4. Block Education Officer, Saltauwa 5. Block Education Officer, Ramnagar
310. Basti Sadar	1. Nayab Tehsildar, Sadar 2. Block Development Officer, Basti Sadar 3. Block Development Officer, Saughat 4. Block Education Officer, City Area 5. Block Education Officer, Saughat
311 . Mahadewa (SC)	1. Block Development Officer, Bahadurpur 2. Block Development Officer, Kudraha 3. Block Development Officer, Bankati 4. Block Education Officer, Bankati 5. Block Education Officer, Kudraha
312 . Mehdawal	1. Tehsildar, Mehdawal 2. Block Development Officer, Mehdawal
313. Khalilabad	1. Tehsildar, Khalilabad 2. Block Development Officer, Khalilabad
314. Dhanghata (SC)	1. Tehsildar, Dhanghata 2. Block Development Officer, Haisar Bazar
315. Pharenda	1. Tehsildar, Pharenda 2. Block Development Officer, Pharenda 3. Block Development Officer, Brijmanganj 4. Nayab Tehsildar, Pharenda 5. Block Education Officer, Pharenda

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
316. Nautanwa	1. Tehsildar, Nautanwa
	2. Block Development Officer, Laxmipur
	3. Block Development Officer, Nautanwa
	4. Nayab Tehsildar, Nautanwa
	5. Block Education Officer, Nautanwa
317. Siswan	1. Tehsildar, Nichlaul
	2. Block Development Officer, Nichlaul
	3. Block Development Officer, Siswa
	4. Nayab Tehsildar, Nichlaul
	5. Block Education Officer, Nichlaul
318. Maharajganj (SC)	1. Block Development Officer, Sadar Maharajganj
	2. Block Development Officer, Ghughali
	3. Nayab Tehsildar, Sadar Maharajganj
	4. Block Education Officer, Sadar Maharajganj
	5. Block Education Officer, Ghughali
319. Ppaniera	1. Tehsildar, Sadar, Maharajganj
	2. Block Development Officer, Partawal
	3. Block Development Officer, Paniyara
	4. Nayab Tehsildar, Ghughali
	5. Block Education Officer, Partawal
320. Campierganj	1. Tehsildar, Campierganj
	2. Block Development Officer, Campierganj
	3. Consolidation Officer, Campierganj
321. Pipraich	1. Block Development Officer, Bhathat
	2. Block Development Officer, Pipraich
	3. Consolidation Officer, Goplapur
322. Gorakhpur City	1. Tehsildar Sadar, Gorakhpur
	2. Block Development Officer, Chargawa
	3. Consolidation Officer, Rustampur
323. Gorakhpur Rural	1. Block Development Officer, Khorabar
	2. Tehsildar (Judicial), Sadar, Gorakhpur
	3. Consolidation Officer, Diwan Bazar
324. Sahjanwa	1. Tehsildar, Sahjanwa
	2. Block Development Officer, Sahajanwa
	3. Block Development Officer, Piprauli
325. Khajani (SC)	1. Tehsildar, Khajani
	2. Block Development Officer, Khajani
	3. Block Development Officer, Belghat
326. Chauri-Chaura	1. Tehsildar, Chauri-Chaura
	2. Consolidation Officer, ChauriChaura
	3. Block Development Officer, Sardar Nagar
327. Bansgaon (SC)	1. Tehsildar, Bansgaon
	2. Tehsildar (Judicial), Bansgaon
	3. Block Development Officer, Bansgaon
328. Chillupar	1. Tehsildar, Gola
	2. Block Development Officer, Gola
	3. Block Development Officer, Barhalganj

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
329. Khadda	1. Tehsildar, Khadda 2. Block Development Officer, Khadda 3. Block Development Officer, Nebua Naurangiya 4. Nayab Tehsildar, Khadda
330. Padrauna	1. Tehsildar, Padrauna 2. Block Development Officer, Padrauna 3. Block Development Officer, Vishunpura 4. Nayab Tehsildar, Padrauna
331. Tamkuhiraj	1. Block Development Officer, Tamkuhiraj 2. Nayab Tehsildar, Taraya Tamkuhiraj 3. Block Development Officer, Dudahi 4. Block Education Officer, Tamkuhiraj
332. Fazilnagar	1. Tehsildar, Tamkuhiraj 2. Block Education Officer, Dudahi 3. Nayab Tehsildar, Dudahi Tah. Tamkuhiraj 4. Nayab Tehsildar, Fazilnagar
333. Kushinagar	1. Tehsildar, Kasia 2. Nayab Tehsildar, Kasia 3. Consolidation Officer, Kasia 4. Block Education Officer, Kasia
334. Hata	1. Tehsildar, Hata 2. Nayab Tehsildar, Hata 3. Block Development Officer, Hata 4. Block Development Officer, Motichak
335. Ramkola (SC)	1. Tehsildar, Kaptanganj 2. Nayab Tehsildar, Kaptanganj 3. Block Development Officer, Ramkola 4. Block Development Officer, Kaptanganj
336. Rudrapur	1. Tehsildar, Rudrapur 2. Block Development Officer, Rudrapur 3. Block Development Officer, Bhaluani
337. Deoria	1. Tehsildar, Deoria 2. Block Development Officer, Deoria 3. Block Development Officer, Gauri Bazar
338. Pathardeva	1. Block Development Officer, Desahi Deoria 2. Block Development Officer, Baitalpur 3. Block Development Officer, Pathardeva
339. Rampur Karkhana	1. Block Development Officer, Rampur Karkhana 2. Block Development Officer, Bhatni 3. Block Development Officer, Tarkulwa
340. Bhatpar Rani	1. Tehsildar, Bhatpar Rani 2. Block Development Officer, Bankata 3. Block Development Officer, Bhatpar Rani
341. Salempur (SC)	1. Tehsildar, Salempur 2. Block Development Officer, Salempur 3. Block Development Officer, Lar

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
342 . Barhaj	1. Tehsildar, Barhaj 2. Block Development Officer, Bhagalpur 3. Block Development Officer, Barhaj
343 . Ataraulia	1. Tehsildar, Budhanpur 2. Block Development Officer, Coyalsa 3. Block Development Officer, Atraulia 4. Nayab Tehsildar, Budhanpur
344. Goapalpur	1. Tehsildar, Sagari 2. Block Development Officer, Maharajganj 3. Block Development Officer, Bilariaganj 4. Nayab Tehsildar, Maharajganj
345. Sagari	1. Tehsildar (Judicial), Sagari 2. Block Development Officer, Haraiya 3. Block Development Officer, Azmatgarh 4. Nayab Tehsildar, Azmatgarh
346. Mubarakpur	1. Tehsildar, Sadar 2. Block Development Officer, Sathiyaon 3. Block Development Officer, Jahanaganj 4. Nayab Tehsildar, Mubarakpur
347. Azamgarh	1. Tehsildar (Judicial), Sadar 2. Block Development Officer, Palhani 3. Block Development Officer, Rani Ki Sarai 4. Nayab Tehsildar, Nagar
348. Nizamabad	1. Tehsildar, Nizamabad 2. Block Development Officer, Mirzapur 3. Block Development Officer, Tehbarpur 4. Nayab Tehsildar, Nizamabad
349. Phoolpur. Pawai	1. Tehsildar, Phulpur 2. Block Development Officer, Phulpur 3. Block Development Officer, Powai 4. Nayab Tehsildar, Phulpur
350. Didarganj	1. Tehsildar, Martinganj 2. Block Development Officer, Martinganj 3. Block Development Officer, Muhammadpur 4. Nayab Tehsildar, Martinganj
351. Lalganj (SC)	1. Tehsildar, Lalganj 2. Block Development Officer, Lalganj 3. Block Development Officer, Palhana 4. Nayab Tehsildar, Lalganj
352. Mehnagar (SC)	1. Tehsildar, Mehnagar 2. Block Development Officer, Mehnagar 3. Block Development Officer, Tarwan 4. Nayab Tehsildar, Mehnagar
353. Madhuban	1. Tehsildar, Madhuban 2. Block Development Officer, Fatehpur Mandao 3. Block Development Officer, Dohrighat 4. Block Education Officer, Fatehpur Mandao 5. Nayab Tehsildar, Madhuban

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
354 . Ghosi	1. Tehsildar, Ghosi 2. Block Development Officer, Ghosi 3. Block Development Officer, Badrav 4. Block Education Officer, Ghosi 5. Block Education Officer, Badrav
355. Muhammadabad. Gohna (SC)	1. Tehsildar, Muhammadabad Gohna 2. Block Development Officer, Muhammadabad Gohna 3. Block Development Officer, Ranipur 4. Block Education Officer, Ranipur 5. Nayab Tehsildar, Muhammadabad Gohna
356. Mau	1. Tehsildar, Sadar, Mau 2. Block Development Officer, Ratanpura 3. Block Development Officer, Kopaganj 4. Block Education Officer, Kopaganj 5. Nayab Tehsildar, Sadar, Mau
357. Belthra Road (SC)	1. Tehsildar, Belthara Road 2. Nayab Tehsildar, Siar 3. Nayab Tehsildar, Bhimpura 4. Block Development Officer, Siar 5. Block Education Officer, Siar
358 . Rasara	1. Tehsildar, Rasara 2. Nayab Tehsildar, Rasara 3. Nayab Tehsildar, Chilkahar 4. Block Development Officer, Rasara 5. Block Education Officer, Rasara
359. Sikandarpur	1. Tehsildar, Sikandarpur 2. Nayab Tehsildar, Maniyar 3. Nayab Tehsildar, Sikandarpur 4. Block Development Officer, Nawanagar 5. Block Education Officer, Nawanagar
360. Phephana	1. Tehsildar, Ballia 2. Nayab Tehsildar, Garwar 3. Nayab Tehsildar, Garaha 4. Block Development Officer, Garwar 5. Block Education Officer, Garwar
361. Ballia Nagar	1. Tehsildar (Judicial), Ballia 2. Consolidation Officer, Sadar, Ballia 3. Nayab Tehsildar, Nagar, Ballia 4. Block Development Officer, Hanumanganj 5. Block Education Officer, Hanumanganj
362. Bansdih	1. Tehsildar, Bansdih 2. Nayab Tehsildar, Reoti 3. Nayab Tehsildar, Bansdih 4. Block Development Officer, Bansdih 5. Block Education Officer, Bansdih

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
363 . Bairia	1. Tehsildar, Bairia
	2. Nayab Tehsildar, Bairia
	3. Nayab Tehsildar, Suremanpur
	4. Block Development Officer, Bairia
	5. Block Education Officer, Bairia
364. Badlapur	1. Tehsildar, Badlapur
	2. Nayab Tehsildar, Badlapur
	3. Block Development Officer, Badlapur
	4. Block Education Officer, Badlapur
365. Shahganj	1. Tehsildar, Shahganj
	2. Nayab Tehsildar Town Shahganj
	3. Block Development Officer, Shahganj
	4. Block Education Officer, Suithakala
366. Jaunpur	1. Tehsildar Sadar, Jaunpur
	2. Nayab Tehsildar, Sadar Jaunpur
	3. Block Development Officer, Dharnapur
	4. Block Education Officer, Baksha
367 . Malhani	1. Nayab Tehsildar, Rari
	2. Block Development Officer, Sikrara
	3. Nayab Tehsildar, Khaparha
	4. Block Education Officer, Sikrara
368. Mungra Badshahpur	1. Tehsildar, Machhalishahr
	2. Nayab Tehsildar, Mungra
	3. Consolidation Officer, Ramnagar Bhadsara. I
	4. Block Education Officer, Mungara Badshahpur
369. Machhalishahar (SC)	1. Nayab Tehsildar (Town), Machhalishahr
	2. Block Development Officer, Machhalishahr
	3. Nayab Tehsildar, Ramnagar
	4. Block Education Officer, Machhalishahr
370 . Mariyahu	1. Tehsildar, Mariyahu
	2. Block Development Officer, Ramnagar
	3. Nayab Tehsildar (Town), Mariyahu
	4. Block Education Officer, Mariyahu
371. Jaffrabad	1. Tehsildar Judicial, Sadar, Jaunpur
	2. Nayab Tehsildar, Byalsi
	3. Consolidation Officer, Ramnagar Bhadsara. II
	4. Block Education Officer, Jalalpur
372. Kerakat (SC)	1. Tehsildar, Kerakat
	2. Nayab Tehsildar, Dobhi
	3. Block Development Officer, Dobhi
	4. Block Education Officer, Kerakat
373. Jakhnia (SC)	1. Tehsildar, Jakhnian
	2. Block Development Officer, Jakhnian
	3. Nayab Tehsildar, Sadat
	4. Nayab Tehsildar, Manihari
374. Saidpur (SC)	1. Tehsildar, Saidpur
	2. Block Development Officer, Saidpur

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
	3. Nayab Tehsildar, Saidpur
	4. Nayab Tehsildar, Nandganj
375. Ghazipur	1. Consolidation Officer, Sadar, Ghazipur
	2. Consolidation Officer, Nandganj
	3. Nayab Tehsildar, Nagar, Ghazipur
	4. Nayab Tehsildar, Karanda
376. Jangipur	1. Tehsildar, Sadar, Ghazipur
	2. Nayab Tehsildar, Birno
	3. Block Development Officer, Birno
	4. Block Development Officer, Sadar, Ghazipur
377. Zahoorabad	1. Tehsildar, Kasimabad
	2. Nayab Tehsildar, Kasimabad
	3. Nayab Tehsildar, Zahoorabad
	4. Block Development Officer, Kasimabad
378. Mohammadabad	1. Tehsildar, Mohammadabad
	2. Nayab Tehsildar, East Mohammadabad
	3. Nayab Tehsildar, West Mohammadabad
	4. Nayab Tehsildar, Middle Mohammadabad
379. Zamania	1. Tehsildar, Zamania
	2. Tehsildar, Sevrai
	3. Nayab Tehsildar, Zamania
	4. Nayab Tehsildar, Dildar Nagar
380. Mughalsarai	1. Tehsildar, Pandit Deendayal Upadhyay Nagar, Chandauli
	2. Tehsildar, Chandauli
	3. Block Development Officer, Niyamatabad, Chandauli
	4. Block Development Officer, Chandauli
	5. Block Education Officer, Niyamatabad
381. Sakaldiha	1. Tehsildar, Sakaldiha
	2. Block Development Officer, Sakaldiha
	3. Block Development Officer, Chahaniya
	4. Block Education Officer, Sakaldiha
	5. Block Education Officer, Chahniya
382. Sayyadaraja	1. Tehsildar, Chandauli
	2. Tehsildar, Sakaldiha
	3. Block Development Officer, Dhanapur
	4. Block Development Officer, Barahani
	5. Block Education Officer, Dhanapur
383. Chakia (SC)	1. Tehsildar, Chakia
	2. Block Development Officer, Chakia
	3. Block Development Officer, Shahabganj
	4. Tehsildar, Naugarh
	5. Block Education Officer, Chakia
384. Pindra	1. Tehsildar, Pindra
	2. Nayab Tehsildar, Kolasla
	3. Nayab Tehsildar, Pandrah
	4. Block Development Officer, Pindra
	5. Block Education Officer, Pindra

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
385 . Ajgara (SC)	1. Nayab Tehsildar, Athgawan 2. Consolidation Officer, First, Varanasi 3. Block Development Officer, Harhua 4. Block Development Officer, Cholapur 5. Block Education Officer, Cholapur
386. Shivpur	1. Tehsildar, Sadar, Varanasi 2. Block Development Officer, Chiraigaon 3. Block Education Officer, Chiraigaon 4. Nayab Tehsildar, Jahlopur 5. District Minority Welfare Officer, Varanasi
387 . Rohaniya	1. Nayab Tehsildar, Arazi Line 2. Block Development Officer, Kashi Vidyapeeth 3. Block Development Officer, Arazi Line 4. Block Education Officer, Kashi Vidyapeeth 5. Block Education Officer, Arazi Line
388. Varanasi North	1. Consolidation Officer II, Varanasi 2. Nayab Tehsildar, Shivpur 3. Assistant Consolidation Officer I, Varanasi 4. District Probation Officer, Varanasi 5. District Horticulture Officer, Varanasi
389. Varanasi South	1. District Programme Officer, Varanasi 2. Block Development Officer, Badagaon 3. Consolidation Officer (III), Varanasi 4. Nayab Tehsildar, Sahar, Varanasi 5. Block Education Officer, Dashashwamedh Zone
390. Varanasi Cantonment	1. Nayab Tehsildar, Katehar 2. District Agriculture Officer, Varanasi 3. Block Education Officer, Headquarters, Varanasi 4. Block Education Officer, Bhelupur Zone 5. Assistant Consolidation Officer, III, Varanasi
391. Sewapuri	1. Tehsildar, Rajatalab 2. Nayab Tehsildar, Sewapuri 3. Child Development Project Officer, Araj Line 4. District Social Welfare Officer, Varanasi 5. Block Development Officer, Sewapuri
392 . Bhadohi	1. Tehsildar, Bhadohi 2. Block Development Officer, Bhadohi 3. Block Development Officer, Suriyawan
393. Gyanpur	1. Tehsildar, Gyanpur 2. Block Development Officer, Gyanpur 3. Block Development Officer, Deegh
394. Aurai (SC)	1. Tehsildar, Aurai 2. Block Development Officer, Aurai 3. Soil Conservation Officer, Bhadohi
395 . Chhanbey (SC)	1. Tehsildar, Lalganj 2. Block Development Officer, Lalganj 3. Block Development Officer, Haliya

Sl. no. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officers
1	2
396. Mirzapur	1. Tehsildar, Sadar, Mirzapur
	2. Block Development Officer, City
	3. Block Development Officer, Chhanbey
397. Majhawan	1. Block Development Officer, Kone
	2. Block Development Officer, Pahari
	3. Block Development Officer, Majhawan
398. Chunar	1. Tehsildar, Chunar
	2. Block Development Officer, Narayanpur
	3. Block Development Officer, Shikhar
399. Marihan	1. Tehsildar, Marihan
	2. Block Development Officer, Patchara Kala
	3. Block Development Officer, Rajgarh
400. Ghorawal	1. Tehsildar, Ghorawal
	2. Block Development Officer, Ghorawal
	3. Block Development Officer, Karma
	4. Block Education Officer, Karma
	5. Block Education Officer, Robertsganj
401. Robertsganj	1. Tehsildar, Robertsganj
	2. Block Development Officer, Robertsganj
	3. Block Development Officer, Chatra
	4. Block Development Officer, Nagwa
	5. Block Education Officer, Chatra
402. Obra (ST)	1. Tehsildar, Obra
	2. Block Development Officer, Chopan
	3. Block Development Officer, Myorpur
	4. Block Education Officer, Chopan
	5. Block Education Officer, Myorpur
403. Duddhi (ST)	1. Tehsildar, Duddhi
	2. Block Development Officer, Duddhi
	3. Block Development Officer, Babhni
	4. Block Education Officer, Duddhi
	5. Block Education Officer, Babhni

By order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
RATNESH SINGH,
Special Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
20 अक्टूबर, 2023

तारीख : _____
28 आश्विन, 1945 (शक)

अधिसूचनाएं

सं० 434/उ०प्र०-वि०स०/2023 :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में और 2 जुलाई, 2021 की समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 434/उ०प्र०-वि०स०/2021 का अधिक्रमण करते हुए निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में, यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक आफिसर को ऐसे सरकारी आफिसर के सामने, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
1-बेहट	उप जिलाधिकारी, बेहट
2-नकुड़	उप जिलाधिकारी, नकुड़
3-सहारनपुर नगर	नगर मजिस्ट्रेट, सहारनपुर
4-सहारनपुर	उप जिलाधिकारी, सहारनपुर
5-देवबन्द	उप जिलाधिकारी, देवबन्द
6-रामपुर मनिहारान (अ०जा०)	उप जिलाधिकारी, रामपुर मनिहारान
7-गंगोह	अपर उप जिलाधिकारी, सहारनपुर
8-कैराना	उप जिलाधिकारी, कैराना
9-थाना भवन	उप जिलाधिकारी, ऊन
10-शामली	उप जिलाधिकारी, शामली
11-बुढ़ाना	उप जिलाधिकारी, बुढ़ाना
12-चरथावल	उप जिलाधिकारी, सदर, मुजफ्फरनगर
13-पुरकाजी (अ०जा०)	डिप्टी कलेक्टर (प्रथम), मुजफ्फरनगर
14-मुजफ्फरनगर	नगर मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर
15-खतौली	उप जिलाधिकारी, खतौली
16-मीरापुर	उप जिलाधिकारी, जानसठ
17-नजीबाबाद	उप जिलाधिकारी, नजीबाबाद
18-नगीना (अ०जा०)	उप जिलाधिकारी (न्यायिक), नगीना
19-बढ़ापुर	उप जिलाधिकारी, नगीना
20-धामपुर	उप जिलाधिकारी, धामपुर
21-नहतौर (अ०जा०)	उप जिलाधिकारी (न्यायिक), धामपुर
22-बिजनौर	उप जिलाधिकारी, बिजनौर
23-चौदपुर	उप जिलाधिकारी, चान्दपुर
24-नूरपुर	डिप्टी कलेक्टर, बिजनौर
25-काँठ	उप जिलाधिकारी, काँठ
26-ठाकुरद्वारा	उप जिलाधिकारी, ठाकुरद्वारा
27-मुरादाबाद ग्रामीण	उप जिलाधिकारी, मुरादाबाद
28-मुरादाबाद नगर	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), मुरादाबाद
29-कुन्दरकी	अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम), मुरादाबाद
30-बिलारी	उप जिलाधिकारी, बिलारी
31-चन्दौसी (अ०जा०)	उप जिलाधिकारी, चन्दौसी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
32-असमोली	डिप्टी कलेक्टर, सम्भल
33-सम्भल	उप जिलाधिकारी, सम्भल
34-स्वार	उप जिलाधिकारी, स्वार
35-चमरव्वा	उप जिलाधिकारी, टाण्डा
36-बिलासपुर	उप जिलाधिकारी, बिलासपुर
37-रामपुर	उप जिलाधिकारी, रामपुर
38-मिलक (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, शाहाबाद
39-धनौरा (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, धनौरा
40-नौगावां सादात	उप जिलाधिकारी, नौगावां सादात
41-अमरोहा	उप जिलाधिकारी, अमरोहा
42-हसनपुर	उप जिलाधिकारी, हसनपुर
43-सिवालखास	अपर नगर मजिस्ट्रेट (सिविल लाईन), मेरठ
44-सरधना	उप जिलाधिकारी, सरधना
45-हस्तिनापुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मवाना
46-किठौर	अपर नगर मजिस्ट्रेट (ब्रह्मपुरी), मेरठ
47-मेरठ कैन्टोनमेंट	अपर नगर मजिस्ट्रेट (सदर), मेरठ
48-मेरठ	नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ
49-मेरठ दक्षिण	उप जिलाधिकारी, मेरठ
50-छपरौली	उप जिला अधिकारी, बड़ौत
51-बड़ौत	उप जिला अधिकारी, बागपत
52-बागपत	उप जिला अधिकारी, खेकड़ा
53-लोनी	उप जिलाधिकारी, लोनी
54-मुरादनगर	अपर उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद
55-साहिबाबाद	उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद
56-गाजियाबाद	नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद
57-मोदी नगर	उप जिलाधिकारी, मोदीनगर
58-धौलाना	उप जिलाधिकारी, धौलाना
59-हापुड़ (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, हापुड़
60-गढ़मुक्तेश्वर	उप जिलाधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर
61-नोएडा	उप जिलाधिकारी, दादरी
62-दादरी	उप जिलाधिकारी, सदर, गौतम बुद्ध नगर
63-जेवर	उप जिलाधिकारी, जेवर
64-सिकन्दराबाद	उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद
65-बुलन्दशहर	उप जिलाधिकारी, बुलन्दशहर
66-स्याना	उप जिलाधिकारी, स्याना
67-अनूपशहर	उप जिलाधिकारी, अनूपशहर
68-डिबाई	उप जिलाधिकारी, डिबाई
69-शिकारपुर	उप जिलाधिकारी, शिकारपुर
70-खुर्जा (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, खुर्जा
71-खैर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, खैर
72-बरौली	उप जिलाधिकारी, गभाना
73-अतरौली	उप जिलाधिकारी, अतरौली
74-छर्चा	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), अलीगढ़
75-कोल	उप जिलाधिकारी, कोल
76-अलीगढ़	नगर मजिस्ट्रेट, अलीगढ़
77-इगलास (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, इगलास
78-हाथरस (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, हाथरस
79-सादाबाद	उप जिलाधिकारी, सादाबाद
80-सिकन्दरा राऊ	उप जिलाधिकारी, सिकन्दरा राऊ
81-छाता	उप जिलाधिकारी, छाता

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
82-मांट	उप जिलाधिकारी, मांट
83-गोवर्धन	उप जिलाधिकारी, गोवर्धन
84-मथुरा	उप जिलाधिकारी, सदर, मथुरा
85-बलदेव (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, महावन
86-एत्मादपुर	उप जिलाधिकारी, एत्मादपुर
87-आगरा कैंटोनमेंट (अ0जा0)	अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम), आगरा
88-आगरा दक्षिण	अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), आगरा
89-आगरा उत्तर	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), आगरा
90-आगरा ग्रामीण (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, आगरा
91-फतेहपुर सीकरी	उप जिलाधिकारी, किरावली
92-खेरागढ़	उप जिलाधिकारी, खेरागढ़
93-फतेहाबाद	उप जिलाधिकारी, फतेहाबाद
94-बाह	उप जिलाधिकारी, बाह
95-टूण्डला (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, टूण्डला
96-जसराना	उप जिलाधिकारी, जसराना
97-फिरोजाबाद	उप जिलाधिकारी, फिरोजाबाद
98-शिकोहाबाद	उप जिलाधिकारी, शिकोहाबाद
99-सिरसागंज	उप जिलाधिकारी, सिरसागंज
100-कासगंज	उप जिलाधिकारी, कासगंज
101-अमौपुर	उप जिलाधिकारी, सहावर
102-पटियाली	उप जिलाधिकारी, पटियाली
103-अलीगंज	उप जिलाधिकारी, अलीगंज
104-एटा	उप जिलाधिकारी, एटा
105-मारहरा	अपर उप जिलाधिकारी (प्रथम), एटा
106-जलेसर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, जलेसर
107-मैनपुरी	उप जिलाधिकारी, मैनपुरी
108-भोगांव	उप जिलाधिकारी, भोगांव
109-किशनी (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, किशनी
110-करहल	उप जिलाधिकारी, करहल
111-गुन्नौर	उप जिलाधिकारी, गुन्नौर
112-बिसौली (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, बिसौली
113-सहसवान	उप जिलाधिकारी, सहसवान
114-बिल्सी	उप जिलाधिकारी, बिल्सी
115-बदायूं	नगर मजिस्ट्रेट, बदायूं
116-शेखूपुर	उप जिलाधिकारी, बदायूं
117-दातागंज	उप जिलाधिकारी, दातागंज
118-बहेड़ी	उप जिलाधिकारी, बहेड़ी
119-मीरगंज	उप जिलाधिकारी, मीरगंज
120-भोजीपुरा	उप जिलाधिकारी, सदर, बरेली
121-नवाबगंज	उप जिलाधिकारी, नवाबगंज
122-फरीदपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, फरीदपुर
123-बिथरी चैनपुर	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), बरेली
124-बरेली	नगर मजिस्ट्रेट, बरेली
125-बरेली कैंटोनमेंट	अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम), बरेली
126-आंवला	उप जिलाधिकारी, आंवला
127-पीलीभीत	उप जिलाधिकारी, अमरिया
128-बरखेड़ा	उप जिलाधिकारी, पीलीभीत
129-पूरनपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, पूरनपुर
130-बीसलपुर	उप जिलाधिकारी, बीसलपुर
131-कटरा	उप जिलाधिकारी, कलान

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
132-जलालाबाद	उप जिलाधिकारी, जलालाबाद
133-तिलहर	उप जिलाधिकारी, तिलहर
134-पुवार्यो (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, पुवार्यो
135-शाहजहांपुर	नगर मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर
136-ददरोल	उप जिलाधिकारी, सदर, शाहजहांपुर
137-पलिया	उप जिलाधिकारी, पलिया
138-निघासन	उप जिलाधिकारी, निघासन
139-गोला गोकर्ननाथ	उप जिलाधिकारी, गोला गोकर्ननाथ
140-श्रीनगर (अ0जा0)	अपर उप जिलाधिकारी, लखीमपुर
141-धौरहरा	उप जिलाधिकारी, धौरहरा
142-लखीमपुर	उप जिलाधिकारी, लखीमपुर
143-कास्ता (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मितौली
144-मोहम्मदी	उप जिलाधिकारी, मोहम्मदी
145-महोली	उप जिलाधिकारी, महोली
146-सीतापुर	नगर मजिस्ट्रेट सीतापुर
147-हरगांव (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, सीतापुर
148-लहरपुर	उप जिलाधिकारी, लहरपुर
149-बिसवां	उप जिलाधिकारी, बिसवां
150-सेवता	अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम), सीतापुर
151-महमूदाबाद	उप जिलाधिकारी, महमूदाबाद
152-सिधौली (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, सिधौली
153-मिश्रिख (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मिश्रिख
154-सवायजपुर	उप जिलाधिकारी, सवायजपुर
155-शाहाबाद	उप जिलाधिकारी, शाहाबाद
156-हरदोई	उप जिलाधिकारी, हरदोई
157-गोपामऊ (अ0जा0)	अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (डिप्टी कलेक्टर) प्रथम, हरदोई
158-साण्डी (अ0जा0)	अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (डिप्टी कलेक्टर) द्वितीय, हरदोई
159-बिलग्राम-मल्लावा	उप जिलाधिकारी, बिलग्राम
160-बालामऊ (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी (न्यायिक), सण्डीला
161-सण्डीला	उप जिलाधिकारी, सण्डीला
162-बांगरमऊ	उप जिलाधिकारी, बांगरमऊ
163-सफीपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, सफीपुर
164-मोहान (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, हसनगंज
165-उन्नाव	उप जिलाधिकारी, उन्नाव
166-भगवन्त नगर	उप जिलाधिकारी, बीघापुर
167-पुरवा	उप जिलाधिकारी, पुरवा
168-मलिहाबाद (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मलिहाबाद
169-बक्शी का तालाब	उप जिलाधिकारी, बक्शी का तालाब
170-सरोजनीनगर	उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर
171-लखनऊ पश्चिम	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), लखनऊ
172-लखनऊ उत्तर	अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम), लखनऊ
173-लखनऊ पूर्व	अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ), लखनऊ
174-लखनऊ मध्य	उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ
175-लखनऊ कैन्टोनमेंट	अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), लखनऊ
176-मोहनलालगंज (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज
177-बछरावां (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, महाराजगंज, रायबरेली
178-तिलोई	उप जिलाधिकारी, तिलोई
179-हरचन्दपुर	उप जिलाधिकारी, लालगंज, रायबरेली
180-रायबरेली	उप जिलाधिकारी, रायबरेली
181-सलोन (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, सलोन

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
182-सरेनी	उप जिलाधिकारी, डलमऊ
183-ऊँचाहार	उप जिलाधिकारी, ऊँचाहार
184-जगदीशपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मुसाफिरखाना
185-गौरीगंज	उप जिलाधिकारी, गौरीगंज
186-अमेठी	उप जिलाधिकारी, अमेठी
187-इसौली	उप जिलाधिकारी, बल्दीराय
188-सुल्तानपुर	उप जिलाधिकारी, सदर, सुल्तानपुर
189-सदर	उप जिलाधिकारी, जयसिंहपुर
190-लम्भुआ	उप जिलाधिकारी, लम्भुआ
191-कादीपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, कादीपुर
192-कायमगंज (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, कायमगंज
193-अमृतपुर	उप जिलाधिकारी, अमृतपुर
194-फर्रुखाबाद	उप जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद
195-भोजपुर	अपर उप जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद
196-छिबरामऊ	उप जिलाधिकारी, छिबरामऊ
197-तिर्वा	उप जिलाधिकारी, तिर्वा
198-कन्नौज (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, कन्नौज
199-जसवन्तनगर	उप जिलाधिकारी, जसवन्तनगर
200-इटावा	उप जिलाधिकारी, इटावा
201-भरथना (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, भरथना
202-बिधूना	उप जिलाधिकारी, बिधूना
203-दिबियापुर	उप जिलाधिकारी, अजीतमल
204-औरैया (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, औरैया
205-रसूलाबाद (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, रसूलाबाद
206-अकबरपुर-रनिया	उप जिलाधिकारी, अकबरपुर
207-सिकन्दरा	उप जिलाधिकारी, सिकन्दरा
208-भोगनीपुर	उप जिलाधिकारी, भोगनीपुर
209-बिल्हौर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, बिल्हौर
210-बिदूर	उप जिलाधिकारी, सदर, कानपुर नगर
211-कल्याणपुर	अपर नगर मजिस्ट्रेट (षष्ठम), कानपुर नगर
212-गोविन्दनगर	अपर नगर मजिस्ट्रेट (सप्तम), कानपुर नगर
213-सीसामऊ	अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), कानपुर नगर
214-आर्य नगर	अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ), कानपुर नगर
215-किदवई नगर	अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम), कानपुर नगर
216-कानपुर कैन्टोनमेंट	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), कानपुर नगर
217-महराजपुर	उप जिलाधिकारी, नर्वल
218-घाटमपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, घाटमपुर
219-माधौगढ़	उप जिलाधिकारी, माधौगढ़
220-कालपी	उप जिलाधिकारी, कालपी
221-उरई (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, उरई
222-बबीना	उप जिलाधिकारी, मोंठ
223-झांसी नगर	उप जिलाधिकारी, झांसी
224-मऊरानीपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मऊरानीपुर
225-गरोठा	उप जिलाधिकारी, गरोठा
226-ललितपुर	उप जिलाधिकारी, ललितपुर
227-महरौनी (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, महरौनी
228-हमीरपुर	उप जिलाधिकारी, हमीरपुर
229-राठ (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, राठ
230-महोबा	उप जिलाधिकारी, महोबा
231-चरखारी	उप जिलाधिकारी, कुलपहाड़

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
232-तिन्दवारी	उप जिलाधिकारी, पैलानी
233-बबेरू	उप जिलाधिकारी, बबेरू
234-नरैनी (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, नरैनी
235-बांदा	उप जिलाधिकारी, बांदा
236-चित्रकूट	उप जिलाधिकारी, कर्वी
237-मानिकपुर	उप जिलाधिकारी, मऊ
238-जहानाबाद	अपर उप जिलाधिकारी (द्वितीय), फतेहपुर
239-बिन्दकी	उप जिलाधिकारी, बिन्दकी
240-फतेहपुर	उप जिलाधिकारी, फतेहपुर
241-अयाह शाह	अपर उप जिलाधिकारी (प्रथम), फतेहपुर
242-हुसैनगंज	बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, फतेहपुर
243-खागा (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, खागा
244-रामपुर खास	उप जिलाधिकारी, लालगंज, प्रतापगढ़
245-बाबागंज (अ0जा0)	अपर उपजिलाधिकारी (प्रथम), प्रतापगढ़
246-कूण्डा	उप जिलाधिकारी, कूण्डा
247-विश्वनाथगंज	उप जिलाधिकारी (न्यायिक), सदर, प्रतापगढ़
248-प्रतापगढ़	उप जिलाधिकारी, प्रतापगढ़
249-पट्टी	उप जिलाधिकारी, पट्टी
250-रानीगंज	उप जिलाधिकारी, रानीगंज
251-सिराथू	उप जिलाधिकारी, सिराथू
252-मंझनपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मंझनपुर
253-चायल	उप जिलाधिकारी, चायल
254-फाफामऊ	अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), प्रयागराज
255-सोरांव (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, सोरांव
256-फूलपुर	उप जिलाधिकारी, फूलपुर
257-प्रतापपुर	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन), प्रयागराज
258-हण्डिया	उप जिलाधिकारी, हंडिया
259-मेजा	उप जिलाधिकारी, मेजा
260-करछना	उप जिलाधिकारी, करछना
261-इलाहाबाद पश्चिम	उप जिलाधिकारी, सदर, प्रयागराज
262-इलाहाबाद उत्तर	अपर उप जिलाधिकारी, सदर, प्रयागराज
263-इलाहाबाद दक्षिण	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), प्रयागराज
264-बारा (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, बारा
265-कोरांव (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, कोरांव
266-कुर्सी	उप जिलाधिकारी, फतेहपुर
267-रामनगर	उप जिलाधिकारी, रामनगर
268-बाराबंकी	उप जिलाधिकारी, नवाबगंज
269-जैदपुर (अ0जा0)	अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम), बाराबंकी
270-दरियाबाद	उप जिलाधिकारी, रामसनेहीघाट
271-रुदौली	उप जिलाधिकारी, रुदौली
272-हैदरगढ़ (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, हैदरगढ़
273-मिल्कीपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर
274-बीकापुर	उप जिलाधिकारी, सोहावल
275-अयोध्या	उप जिलाधिकारी, सदर, अयोध्या
276-गोशाईगंज	उप जिलाधिकारी, बीकापुर
277-कटेहरी	उप जिलाधिकारी, भीटी
278-टाण्डा	उप जिलाधिकारी, टाण्डा
279-आलापुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, आलापुर
280-जलालपुर	उप जिलाधिकारी, जलालपुर
281-अकबरपुर	उप जिलाधिकारी, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
282-बलहा (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मिहीपुरवा (मोतीपुर)
283-नानपारा	उप जिलाधिकारी, नानपारा
284-मटेरा	अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम), बहराइच
285-महसी	उप जिलाधिकारी, महसी
286-बहराइच	उप जिलाधिकारी, बहराइच
287-पयागपुर	उप जिलाधिकारी, पयागपुर
288-कैसरगंज	उप जिलाधिकारी, कैसरगंज
289-भिनगा	उप जिलाधिकारी, भिनगा
290-श्रावस्ती	उप जिलाधिकारी, इकोना
291-तुलसीपुर	अपर उप जिलाधिकारी, बलरामपुर
292-गैसड़ी	उप जिलाधिकारी, तुलसीपुर
293-उतरौला	उप जिलाधिकारी, उतरौला
294-बलरामपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, बलरामपुर
295-मेहनौन	उप जिलाधिकारी, न्यायिक, तरबगंज
296-गोन्डा	उप जिलाधिकारी, गोन्डा
297-कटरा बाजार	अपर उप जिलाधिकारी (द्वितीय), गोन्डा
298-कर्नलगंज	उप जिलाधिकारी, करनैलगंज
299-तरबगंज	उप जिलाधिकारी, तरबगंज
300-मनकापुर (अ0जा0)	अपर उप जिलाधिकारी (प्रथम), गोन्डा
301-गौरा	उप जिलाधिकारी, मनकापुर
302-शोहरतगढ़	उप जिलाधिकारी, शोहरतगढ़
303-कपिलवस्तु (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, नौगढ़
304-बांसी	उप जिलाधिकारी, बांसी
305-इटवा	उप जिलाधिकारी, इटवा
306-डुमरियागंज	उप जिलाधिकारी, डुमरियागंज
307-हरैया	उप जिलाधिकारी, हरैया
308-कप्तानगंज	उप जिलाधिकारी, रूधौली
309-रूधौली	उप जिलाधिकारी, भानपुर
310-बस्ती सदर	उप जिलाधिकारी, बस्ती
311-महादेवा (अ0जा0)	अपर उप जिलाधिकारी, बस्ती
312-मैंहदावल	उप जिलाधिकारी, मैंहदावल
313-खलीलाबाद	उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद
314-धनघटा (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, धनघटा
315-फरेन्दा	उप जिलाधिकारी, फरेन्दा
316-नौतनवा	उप जिलाधिकारी, नौतनवा
317-सिसवा	उप जिलाधिकारी, निचलौल
318-महराजगंज (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, सदर, महराजगंज
319-पनियरा	अपर उप जिलाधिकारी, सदर, महराजगंज
320-कैम्पियरगंज	उप जिलाधिकारी, कैम्पियरगंज
321-पिपराइच	अपर उप जिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर
322-गोरखपुर शहर	उप जिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर
323-गोरखपुर ग्रामीण	अपर नगर मजिस्ट्रेट, गोरखपुर
324-सहजनवा	उप जिलाधिकारी, सहजनवा
325-खजनी (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, खजनी
326-चौरी-चौरा	उप जिलाधिकारी, चौरी-चौरा
327-बांसगाव (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, बांसगाव
328-चिल्लूपार	उप जिलाधिकारी, गोला
329-खड्डा	उप जिलाधिकारी, खड्डा
330-पडरौना	उप जिलाधिकारी, पडरौना
331-तमकुहीराज	उप जिलाधिकारी, तमकुहीराज

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
332-फाजिलनगर	उप जिलाधिकारी (न्यायिक), कसया
333-कुशीनगर	उप जिलाधिकारी, कसया
334-हाटा	उप जिलाधिकारी, हाटा
335-रामकोला (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, कप्तानगंज
336-रुद्रपुर	उप जिलाधिकारी, रुद्रपुर
337-देवरिया	उप जिलाधिकारी, देवरिया
338-पथरदेवा	अपर उप जिलाधिकारी, देवरिया
339-रामपुर कारखाना	अपर उप जिलाधिकारी, सलेमपुर
340-भाटपार रानी	उप जिलाधिकारी, भाटपार रानी
341-सलेमपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, सलेमपुर
342-बरहज	उप जिलाधिकारी, बरहज
343-अतरौलिया	उप जिलाधिकारी, बूढ़नपुर
344-गोपालपुर	उप जिलाधिकारी (न्यायिक), सगड़ी
345-सगड़ी	उप जिलाधिकारी, सगड़ी
346-मुबारकपुर	उप जिलाधिकारी (न्यायिक), सदर, आजमगढ़
347-आजमगढ़	उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़
348-निजामाबाद	उप जिलाधिकारी, निजामाबाद
349-फूलपुर-पर्व	उप जिलाधिकारी, फूलपुर
350-दीदारगंज	उप जिलाधिकारी, मार्टीनगंज
351-लालगंज (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, लालगंज, आजमगढ़
352-मेहनगर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मेहनगर
353-मधुबन	उप जिलाधिकारी, मधुबन
354-घोसी	उप जिलाधिकारी, घोसी
355-मुहम्मदाबाद- गोहना (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद-गोहना
356-मऊ	उप जिलाधिकारी, सदर, मऊ
357-बेल्थरा रोड (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, बेल्थरारोड
358-रसड़ा	उप जिलाधिकारी, रसड़ा
359-सिकन्दरपुर	उप जिलाधिकारी, सिकन्दरपुर
360-फेफना	अपर उप जिलाधिकारी, बलिया
361-बलिया नगर	उप जिलाधिकारी, बलिया
362-बांसडीह	उप जिलाधिकारी, बांसडीह
363-बैरिया	उप जिलाधिकारी, बैरिया
364-बदलापुर	उप जिलाधिकारी, बदलापुर
365-शाहगंज	उप जिलाधिकारी, शाहगंज
366-जौनपुर	नगर मजिस्ट्रेट, जौनपुर
367-मल्हनी	उप जिलाधिकारी, सदर, जौनपुर
368-मुंगरा बादशाहपुर	अतिरिक्त उप जिलाधिकारी (प्रथम), जौनपुर
369-मछलीशहर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, मछलीशहर
370-मडियाहूँ	उप जिलाधिकारी, मडियाहूँ
371-जफराबाद	अतिरिक्त उप जिलाधिकारी (द्वितीय), जौनपुर
372-केराकत (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, केराकत
373-जखनिया (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, जखनियां
374-सैदपुर (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, सैदपुर
375-गाजीपुर	उप जिलाधिकारी, गाजीपुर
376-जंगीपुर	अपर उप जिलाधिकारी, सदर, गाजीपुर
377-जहूराबाद	उप जिलाधिकारी, कासिमाबाद
378-मोहम्मदाबाद	उप जिलाधिकारी, मोहम्मदाबाद
379-जमानियां	उप जिलाधिकारी, जमानियां
380-मुगलसराय	उप जिलाधिकारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली
381-सकलडीहा	उप जिलाधिकारी, सकलडीहा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	रिटर्निंग आफिसर
1	2
382-सैयदराजा	उप जिलाधिकारी, चन्दौली
383-चकिया (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, चकिया
384-पिन्डा	उप जिलाधिकारी, पिन्डा
385-अजगरा (अ0जा0)	डिप्टी कलेक्टर प्रथम, वाराणसी
386-शिवपुर	उप जिलाधिकारी, सदर, वाराणसी
387-रोहनियां	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय), वाराणसी
388-वाराणसी उत्तर	डिप्टी कलेक्टर (द्वितीय), वाराणसी
389-वाराणसी दक्षिण	अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय), वाराणसी
390-वाराणसी कैन्टोनमेंट	अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम), वाराणसी
391-सेवापुरी	उप जिलाधिकारी, राजातालाब, वाराणसी
392-भदोही	उप जिलाधिकारी, भदोही
393-ज्ञानपुर	उप जिलाधिकारी, ज्ञानपुर
394-औराई (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, औराई
395-छानबे (अ0जा0)	उप जिलाधिकारी, लालगंज, मीरजापुर
396-मिर्जापुर	नगर मजिस्ट्रेट, मीरजापुर
397-मझवा	उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर
398-चुनार	उप जिलाधिकारी, चुनार
399-मड़िहान	उप जिलाधिकारी, मड़िहान
400-घोरावल	उप जिलाधिकारी, घोरावल
401-राबर्ट्सगंज	उप जिलाधिकारी, राबर्ट्सगंज
402-ओबरा (अ0ज0जा0)	उप जिलाधिकारी, ओबरा
403-दुद्धी (अ0ज0जा0)	उप जिलाधिकारी, दुद्धी

सं0 434 / उ0प्र0-वि0स0 / 2023(1) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 2 जुलाई, 2021 की समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं0 434 / उ0प्र0-वि0स0 / 2021(1) का अधिक्रमण करते हुए निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारी/अधिकारियों को, ऐसे सरकारी अधिकारी/अधिकारियों के सामने, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसा कि उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, के रिटर्निंग आफिसर के कार्यों के निर्वहन में, उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
1-बेहट	1. तहसीलदार, बेहट 2. नायब तहसीलदार, बेहट 3. खण्ड विकास अधिकारी, मुजफ्फराबाद 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फराबाद
2-नकुड़	1. नायब तहसीलदार, नकुड़ 2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नकुड़ 3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, नकुड़ 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नकुड़
3-सहारनपुर नगर	1. तहसीलदार, सहारनपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. नायब तहसीलदार, सहारनपुर
	3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहारनपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बलियाखेडी
4—सहारनपुर	1. नायब तहसीलदार, हरोडा
	2. नायब तहसीलदार, पुंवारका
	3. खण्ड विकास अधिकारी, पुंवारका
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पुंवारका
5—देवबन्द	1. तहसीलदार, देवबन्द
	2. नायब तहसीलदार, देवबन्द
	3. खण्ड विकास अधिकारी, देवबन्द
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवबन्द
6—रामपुर मनिहारान (अ0जा0)	1. तहसीलदार, रामपुर मनिहारान
	2. नायब तहसीलदार, रामपुर मनिहारान
	3. खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर मनिहारान
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामपुर मनिहारान
7—गंगोह	1. तहसीलदार, नकुड़
	2. नायब तहसीलदार, गंगोह
	3. खण्ड विकास अधिकारी, नानौता
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गंगोह
8—कैराना	1. तहसीलदार, कैराना
	2. नायब तहसीलदार, कैराना
	3. खण्ड विकास अधिकारी, कैराना
9—थाना भवन	1. तहसीलदार, ऊन
	2. नायब तहसीलदार, ऊन
	3. खण्ड विकास अधिकारी, ऊन
10—शामली	1. तहसीलदार, शामली
	2. नायब तहसीलदार, शामली
	3. खण्ड विकास अधिकारी, शामली
11—बुढाना	1. तहसीलदार, बुढाना
	2. खण्ड विकास अधिकारी, शाहपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बुढाना
12—चरथावल	1. खण्ड विकास अधिकारी, सदर, मुजफ्फरनगर
	2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, मुजफ्फरनगर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, चरथावल
13—पुरकाजी (अ0जा0)	1. तहसीलदार, सदर, मुजफ्फरनगर
	2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर
	3. नायब तहसीलदार, पुरकाजी
14—मुजफ्फरनगर	1. जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर
	2. जिला कृषि अधिकारी, मुजफ्फरनगर
	3. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी—प्रथम, मुजफ्फरनगर
	4. नायब तहसीलदार, शहर, मुजफ्फरनगर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
15-खतौली	1. तहसीलदार, खतौली
	2. खण्ड विकास अधिकारी, खतौली
	3. नायब तहसीलदार, खतौली
16-मीरापुर	1. तहसीलदार, जानसठ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, जानसठ
	3. जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जानसठ
17-नजीबाबाद	1. तहसीलदार, नजीबाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, नजीबाबाद
18-नगीना (अ0जा0)	1. तहसीलदार, नगीना
	2. खण्ड विकास अधिकारी, किरतपुर
19-बढ़ापुर	1. खण्ड विकास अधिकारी, अफजलगढ़
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कोतवाली
20-धामपुर	1. खण्ड विकास अधिकारी, अल्हैपुर धामपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, स्योहारा
21-नहतौर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, धामपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, आंकू नहतौर
22-बिजनौर	1. तहसीलदार, बिजनौर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मौ0पुर देवमल
23-चौदपुर	1. खण्ड विकास अधिकारी, जलीलपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हल्दौर
24-नूरपुर	1. तहसीलदार, चान्दपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, नूरपुर
25-कांठ	1. तहसीलदार, कांठ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, छजलैट
	3. चकबन्दी अधिकारी, तृतीय, मुरादाबाद
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, छजलैट
26-ठाकुरद्वारा	1. तहसीलदार, ठाकुरद्वारा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, ठाकुरद्वारा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, डिलारी
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, ठाकुरद्वारा
27-मुरादाबाद ग्रामीण	1. तहसीलदार (न्यायिक), मुरादाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, भगतपुर टाण्डा
	3. चकबन्दी अधिकारी, प्रथम, मुरादाबाद
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद
28-मुरादाबाद नगर	1. तहसीलदार, सदर, मुरादाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मुरादाबाद
	3. चकबन्दी अधिकारी, द्वितीय, मुरादाबाद
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी (नगर), मुरादाबाद
29-कुन्दरकी	1. तहसीलदार(न्यायिक), बिलारी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कुन्दरकी
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मूढ़ापान्डे
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कुन्दरकी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
30—बिलारी	1. तहसीलदार, बिलारी 2. खण्ड विकास अधिकारी, बिलारी 3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिलारी 4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिलारी 5. नायब तहसीलदार, चन्दौसी
31—चन्दौसी (अ0जा0)	1. तहसीलदार, चन्दौसी 2. खण्ड विकास अधिकारी, बनियाखेड़ा 3. खण्ड विकास अधिकारी, बहजोई
32—असमोली	1. तहसीलदार, सम्भल 2. खण्ड विकास अधिकारी, पवांसा 3. खण्ड विकास अधिकारी, असमोली
33—सम्भल	1. नायब तहसीलदार, सम्भल 2. खण्ड विकास अधिकारी, सम्भल 3. चकबन्दी अधिकारी (प्रथम), सम्भल
34—स्वार	1. तहसीलदार, स्वार 2. नायब तहसीलदार, स्वार 3. खण्ड विकास अधिकारी, स्वार
35—चमरव्वा	1. तहसीलदार, टाण्डा 2. खण्ड विकास अधिकारी, सैदनगर 3. नायब तहसीलदार, टाण्डा
36—बिलासपुर	1. तहसीलदार, बिलासपुर 2. खण्ड विकास अधिकारी, बिलासपुर 3. नायब तहसीलदार, बिलासपुर
37—रामपुर	1. तहसीलदार, रामपुर 2. खण्ड विकास अधिकारी, चमरौआ 3. नायब तहसीलदार, सदर
38—मिलक (अ0जा0)	1. तहसीलदार, शाहाबाद 2. तहसीलदार, मिलक 3. नायब तहसीलदार, मिलक
39—धनौरा (अ0जा0)	1. तहसीलदार, धनौरा 2. खण्ड विकास अधिकारी, धनौरा 3. खण्ड विकास अधिकारी, गजरौला 4. नायब तहसीलदार, धनौरा
40—नौगावां सादात	1. तहसीलदार, नौगावां सादात 2. खण्ड विकास अधिकारी, अमरोहा 3. चकबन्दी अधिकारी, धनौरा 4. नायब तहसीलदार, हसनपुर
41—अमरोहा	1. तहसीलदार, अमरोहा 2. खण्ड विकास अधिकारी, जोया 3. नायब तहसीलदार, अमरोहा 4. नायब तहसीलदार, कैलसा
42—हसनपुर	1. तहसीलदार, हसनपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हसनपुर
	3. चकबन्दी अधिकारी, हसनपुर
	4. नायब तहसीलदार, रहरा
43—सिवालखास	1. तहसीलदार (न्यायिक), सरधना
	2. नायब तहसीलदार, प्रथम, तहसील—मेरठ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, जानीखुर्द
44—सरधना	1. तहसीलदार, सरधना
	2. नायब तहसीलदार, सरधना, तहसील—सरधना
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सरधना
45—हस्तिनापुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मवाना
	2. नायब तहसीलदार, हस्तिनापुर, तहसील मवाना
	3. खण्ड विकास अधिकारी, हस्तिनापुर
46—किठौर	1. नायब तहसीलदार, किठौर, तहसील मवाना
	2. नायब तहसीलदार, षष्ठम, तहसील मेरठ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, माछरा
47—मेरठ कैन्ट	1. नायब तहसीलदार, तृतीय, तहसील मेरठ
	2. नायब तहसीलदार, सरूरपुरखुर्द, तहसील सरधना
	3. खण्ड विकास अधिकारी, रजपुरा
48—मेरठ	1. नायब तहसीलदार—द्वितीय, तहसील—मेरठ
	2. नायब तहसीलदार—चतुर्थ, तहसील—मेरठ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ
49—मेरठ दक्षिण	1. नायब तहसीलदार, पंचम, तहसील—मेरठ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, दौराला
	3. खण्ड विकास अधिकारी, खरखौदा
50—छपरौली	1. तहसीलदार, बड़ौत
	2. नायब तहसीलदार, बड़ौत
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बिनौली
51—बड़ौत	1. तहसीलदार, बागपत
	2. नायब तहसीलदार, बागपत
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत
52—बागपत	1. तहसीलदार, खेकड़ा
	2. नायब तहसीलदार, खेकड़ा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, खेकड़ा
53—लोनी	1. तहसीलदार, लोनी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, लोनी
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लोनी
	4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, लोनी
54—मुरादनगर	1. तहसीलदार, गाजियाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मुरादनगर
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुरादनगर
	4. नायब तहसीलदार, मोदीनगर
55—साहिबाबाद	1. तहसीलदार (न्यायिक), गाजियाबाद

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. खण्ड विकास अधिकारी, रजापुर
	3. जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रजापुर
	5. उप निदेशक, कृषि, गाजियाबाद
	6. उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद
	7. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गाजियाबाद
	8. सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, गाजियाबाद
56—गाजियाबाद	1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद
	2. नायब तहसीलदार, गाजियाबाद
	3. पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद
	4. नगर शिक्षा अधिकारी, विजयनगर जोन, गाजियाबाद
57—मोदी नगर	1. तहसीलदार, मोदीनगर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, भोजपुर
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भोजपुर
	4. जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद
58—धौलाना	1. तहसीलदार, धौलाना
	2. खण्ड विकास अधिकारी, धौलाना
	3. नायब तहसीलदार, धौलाना
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, धौलाना
	5. नायब तहसीलदार—सीलिंग, गाजियाबाद
	6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, गाजियाबाद
59—हापुड़ (अ0जा0)	1. तहसीलदार, हापुड़
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हापुड़
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हापुड़
	4. नायब तहसीलदार, परगना हापुड़
	5. नायब तहसीलदार, परगना बाबूगढ़
60—गढ़मुक्तेश्वर	1. तहसीलदार, गढ़मुक्तेश्वर
	2. नायब तहसीलदार, परगना पूठ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर
	4. खण्ड विकास अधिकारी, सिम्भावली
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर
61—नोएडा	1. तहसीलदार, दादरी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बिसरख
62—दादरी	1. तहसीलदार, सदर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, दादरी
63—जेवर	1. तहसीलदार, जेवर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, जेवर
64—सिकन्दराबाद	1. तहसीलदार, सिकन्दराबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दराबाद
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गुलावठी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिकन्दराबाद
	5. नायब तहसीलदार (चोला), सिकन्दराबाद
	6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, गुलावठी
65—बुलन्दशहर	1. तहसीलदार, बुलन्दशहर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, अगौता
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर
	4. नायब तहसीलदार (नगर), बुलन्दशहर
	5. नायब तहसीलदार (औरंगाबाद), बुलन्दशहर
	6. चकबन्दी अधिकारी, बुलन्दशहर
66—स्याना	1. तहसीलदार, स्याना
	2. खण्ड विकास अधिकारी, स्याना
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, स्याना
	4. नायब तहसीलदार (नगर), स्याना
	5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्याना
67—अनूपशहर	1. तहसीलदार, अनूपशहर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, अनूपशहर
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अनूपशहर
	4. नायब तहसीलदार, अनूपशहर
	5. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर
68—डिबाई	1. तहसीलदार, डिबाई
	2. खण्ड विकास अधिकारी, डिबाई
	3. खण्ड विकास अधिकारी, दानपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, डिबाई
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, दानपुर
69—शिकारपुर	1. तहसीलदार, शिकारपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, शिकारपुर
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, शिकारपुर
	4. नायब तहसीलदार (नगर), शिकारपुर
	5. चकबन्दी अधिकारी, शिकारपुर
70—खुर्जा (अ0जा0)	1. तहसीलदार, खुर्जा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, खुर्जा
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, खुर्जा
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अरनियां
	5. नायब तहसीलदार (मैना मौजपुर), खुर्जा
	6. चकबन्दी अधिकारी, खुर्जा
71—खैर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, खैर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, खैर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, टप्पल
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, खैर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, टप्पल
72—बरौली	1. तहसीलदार, गभाना
	2. खण्ड विकास अधिकारी, चण्डौस

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चण्डौस
	4. नायब तहसीलदार, चण्डौस
	5. नायब तहसीलदार, बरौली
73—अतरौली	1. खण्ड विकास अधिकारी, अतरौली
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बिजौली
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अतरौली
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिजौली
	5. नायब तहसीलदार, अतरौली
74—छर्चा	1. तहसीलदार, अतरौली
	2. खण्ड विकास अधिकारी, गंगीरी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, अकराबाद
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, अकराबाद
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गंगीरी
75—कोल	1. खण्ड विकास अधिकारी, लोधा
	2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लोधा
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जवां
	4. नायब तहसीलदार, मोरथल
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर, अलीगढ़
76—अलीगढ़	1. तहसीलदार, कोल
	2. खण्ड विकास अधिकारी, धनीपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, जवां
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, धनीपुर
	5. नायब तहसीलदार, कोल
77—इगलास (अ0जा0)	1. तहसीलदार, इगलास
	2. खण्ड विकास अधिकारी, इगलास
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गोण्डा
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, इगलास
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोण्डा
78—हाथरस (अ0जा0)	1. तहसीलदार, हाथरस
	2. तहसीलदार, सासनी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, हाथरस
	4. खण्ड विकास अधिकारी, सासनी
79—सादाबाद	1. तहसीलदार, सादाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सादाबाद
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सहपऊ
	4. खण्ड विकास अधिकारी, मुरसान
80—सिकन्दरा राऊ	1. तहसीलदार, सिकन्दराराऊ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दराराऊ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, हसायन
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिकन्दराराऊ
81—छाता	1. तहसीलदार, छाता
	2. नायब तहसीलदार, नन्दगौव

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. खण्ड विकास अधिकारी, नन्दगौंव
82—मांट	1. तहसीलदार, मांट
	2. नायब तहसीलदार, नौहझील
	3. खण्ड विकास अधिकारी, नौहझील
83—गोवर्धन	1. तहसीलदार, गोवर्धन
	2. नायब तहसीलदार, गोवर्धन
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गोवर्धन
84—मथुरा	1. तहसीलदार, सदर, मथुरा
	2. नायब तहसीलदार, फरह
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मथुरा (ग्रामीण)
85—बलदेव (अ0जा0)	1. तहसीलदार, महावन
	2. नायब तहसीलदार, बल्देव
	3. खण्ड विकास अधिकारी, राया
86—एत्मादपुर	1. तहसीलदार, एत्मादपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, खन्दौली
	3. खण्ड विकास अधिकारी, एत्मादपुर
	4. नायब तहसीलदार, एत्मादपुर
87—आगरा कैन्टोनमेंट (अ0जा0)	1. तहसीलदार (सदर), आगरा
	2. चकबन्दी अधिकारी, सदर, आगरा
	3. जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा
	4. नायब तहसीलदार, अकोला
88—आगरा दक्षिण	1. खण्ड विकास अधिकारी, बरौली अहीर
	2. सहायक निदेशक, बचत, आगरा
	3. जिला प्रोबेशन अधिकारी, आगरा
	4. नायब तहसीलदार, बरौली अहीर
89—आगरा उत्तर	1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा
	2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, आगरा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बिचपुरी, आगरा
	4. नायब तहसीलदार, कुण्डौल
90—आगरा ग्रामीण (अ0जा0)	1. तहसीलदार, न्यायिक, सदर, आगरा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सैंया
	3. खण्ड विकास अधिकारी, अकोला
	4. नायब तहसीलदार(न्यायिक), राज्य कर तहसील सदर
91—फतेहपुर सीकरी	1. तहसीलदार, किरावली
	2. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर सीकरी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, अछनेरा
	4. नायब तहसीलदार, किरावली
92—खेरागढ़	1. तहसीलदार, खेरागढ़
	2. खण्ड विकास अधिकारी, खेरागढ़
	3. खण्ड विकास अधिकारी, जगनेर
	4. नायब तहसीलदार, खेरागढ़
93—फतेहाबाद	1. तहसीलदार, फतेहाबाद

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहाबाद
	3. खण्ड विकास अधिकारी, शमशाबाद
	4. नायब तहसीलदार, फतेहाबाद
94—बाह	1. तहसीलदार, बाह
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बाह
	3. खण्ड विकास अधिकारी, पिनाहट
	4. नायब तहसीलदार, बाह
95—टूण्डला (अ0जा0)	1. तहसीलदार, टूण्डला
	2. खण्ड विकास अधिकारी, टूण्डला
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, टूण्डला
	4. खण्ड विकास अधिकारी, नारखी
96—जसराना	1. तहसीलदार, जसराना
	2. खण्ड विकास अधिकारी, जसराना
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जसराना
	4. खण्ड विकास अधिकारी, एका
97—फिरोजाबाद	1. तहसीलदार, फिरोजाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, फिरोजाबाद
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद
	4. सहायक आयुक्त, निबंधक सहकारी समितियां, फिरोजाबाद
98—शिकोहाबाद	1. तहसीलदार, शिकोहाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, शिकोहाबाद
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, शिकोहाबाद
	4. खण्ड विकास अधिकारी, खैरगढ
99—सिरसागंज	1. तहसीलदार, सिरसागंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मदनपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, अरौव
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मदनपुर
100—कासगंज	1. तहसीलदार, कासगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कासगंज
	3. नायब तहसीलदार, कासगंज
101—अमौपुर	1. तहसीलदार, सहावर
	2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहावर
	3. नायब तहसीलदार, सहावर
102—पटियाली	1. तहसीलदार, पटियाली
	2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पटियाली
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गंजडुण्डवारा
103—अलीगंज	1. तहसीलदार, अलीगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, अलीगंज
104—एटा	1. खण्ड विकास अधिकारी, शीतलपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सकीट
105—मारहरा	1. तहसीलदार, एटा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मारहरा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
106—जलेसर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, जलेसर 2. खण्ड विकास अधिकारी, जलेसर
107—मैनपुरी	1. तहसीलदार, मैनपुरी 2. तहसीलदार, कुरावली 3. खण्ड विकास अधिकारी, मैनपुरी
108—भोगाँव	1. तहसीलदार, भोगाँव 2. खण्ड विकास अधिकारी, बेवर 3. खण्ड विकास अधिकारी, सुल्तानगंज
109—किशनी (अ0जा0)	1. तहसीलदार, किशनी 2. खण्ड विकास अधिकारी, किशनी 3. खण्ड विकास अधिकारी, जागीर
110—करहल	1. तहसीलदार, करहल 2. तहसीलदार, धिरोर 3. खण्ड विकास अधिकारी, करहल
111—गुन्नौर	1. तहसीलदार, गुन्नौर 2. खण्ड विकास अधिकारी, गुन्नौर 3. खण्ड विकास अधिकारी, रजपुरा
112—बिसौली (अ0जा0)	1. तहसीलदार, बिसौली 2. खण्ड विकास अधिकारी, बिसौली 3. नायब तहसीलदार, बिसौली
113—सहसवान	1. तहसीलदार, सहसवान 2. खण्ड विकास अधिकारी, सहसवान 3. चकबन्दी अधिकारी, सहसवान
114—बिल्सी	1. तहसीलदार, बिल्सी 2. नायब तहसीलदार, बिल्सी 3. नायब तहसीलदार, उधैती
115—बदायूँ	1. तहसीलदार, बदायूँ 2. खण्ड विकास अधिकारी, सालारपुर 3. नायब तहसीलदार, जगत
116—शेखूपुर	1. जिला कार्यक्रम अधिकारी, बदायूँ 2. नायब तहसीलदार, कादरचौक 3. खण्ड विकास अधिकारी, कादरचौक
117—दातागंज	1. तहसीलदार, दातागंज 2. नायब तहसीलदार, मध्य, दातागंज 3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, दातागंज
118—बहेड़ी	1. तहसीलदार, बहेड़ी 2. खण्ड विकास अधिकारी, बहेड़ी 3. नायब तहसीलदार, चौमहला, बहेड़ी 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, शेरगढ़ 5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बहेड़ी
119—मीरगंज	1. तहसीलदार, मीरगंज 2. खण्ड विकास अधिकारी, मीरगंज

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. नायब तहसीलदार, मीरगंज
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मीरगंज
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, फतेहगंज पश्चिमी
120—भोजीपुरा	1. तहसीलदार (न्यायिक), बहेड़ी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, भोजीपुरा
	3. नायब तहसीलदार, भोजीपुरा सदर बरेली
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भोजीपुरा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, दमखोदा
121—नवाबगंज	1. तहसीलदार, नवाबगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज
	3. नायब तहसीलदार, नवाबगंज
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नवाबगंज
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भदपुरा
122—फरीदपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, फरीदपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, फरीदपुर
	3. चकबन्दी अधिकारी, फरीदपुर
	4. नायब तहसीलदार, फरीदपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरीदपुर
123—बिथरी चैनपुर	1. तहसीलदार (न्यायिक), आंवला
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बिथरी चैनपुर
	3. नायब तहसीलदार, रिठौरा
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, आलमपुर जाफराबाद
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिथरी चैनपुर
124—बरेली	1. तहसीलदार (न्यायिक), बरेली
	2. खण्ड विकास अधिकारी, क्यारा
	3. चकबन्दी अधिकारी, सदर, द्वितीय
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, क्यारा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-1, बरेली
125—बरेली कैंटोनमेंट	1. तहसीलदार, सदर, बरेली
	2. चकबन्दी अधिकारी, सदर प्रथम, बरेली
	3. नायब तहसीलदार, चौबारी सदर, बरेली
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-2, बरेली
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-3, बरेली
126—आंवला	1. तहसीलदार, आंवला
	2. खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर
	3. नायब तहसीलदार, आंवला
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मझगवां
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर
127—पीलीभीत	1. तहसीलदार, अमरिया
	2. खण्ड विकास अधिकारी, अमरिया
	3. खण्ड विकास अधिकारी, ललौरी खेड़ा
128—बरखेड़ा	1. तहसीलदार, पीलीभीत

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बरखेडा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मरौरी
129—पूरनपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, पूरनपुर
	2. तहसीलदार, कलीनगर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, पूरनपुर
130—बीसलपुर	1. तहसीलदार, बीसलपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बीसलपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बिलसण्डा
131—कटरा	1. तहसीलदार, तिलहर
	2. तहसीलदार, कलान
	3. खण्ड विकास अधिकारी, जैतीपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कलान
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जैतीपुर
132—जलालाबाद	1. तहसीलदार, जलालाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, जलालाबाद
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मिर्जापुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मिर्जापुर
	5. चकबन्दी अधिकारी, जलालाबाद
133—तिलहर	1. तहसीलदार (न्यायिक), पुवार्यौ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, तिलहर
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, निगोही
	4. नायब तहसीलदार, पुवार्यौ
134—पुवार्यौ (अ0जा0)	1. तहसीलदार, पुवार्यौ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, पुवार्यौ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, खुटार
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पुवार्यौ
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बण्डा
135— शाहजहांपुर	1. तहसीलदार, सदर, शाहजहांपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, भावलखेडा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मदनपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय
	5. नायब तहसीलदार, सदर, शाहजहांपुर
136—ददरौल	1. चकबन्दी अधिकारी, शाहजहांपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, ददरौल
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कांट
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर, शाहजहांपुर
137—पलिया	1. तहसीलदार, पलिया
	2. खण्ड विकास अधिकारी, पलिया
	3. नायब तहसीलदार, पलिया
	4. नायब तहसीलदार, भूड, तहसील—गोला गोकर्ननाथ
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पलिया
138—निघासन	1. तहसीलदार, निघासन

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. खण्ड विकास अधिकारी, निघासन
	3. नायब तहसीलदार, खैरीगढ़
	4. नायब तहसीलदार, निघासन
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, निघासन
139—गोला गोकर्ननाथ	1. तहसीलदार, गोला गोकर्ननाथ
	2. नायब तहसीलदार, गोला
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गोला (कुम्भी)
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बिजुआ
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोला
140—श्रीनगर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, लखीमपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, फूलबेहड़
	3. नायब तहसीलदार, श्रीनगर
	4. नायब तहसीलदार, भूड—श्रीनगर, तहसील—लखीमपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर
141—धौरहरा	1. तहसीलदार, धौरहरा
	2. नायब तहसीलदार, धौरहरा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, धौरहरा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, ईसानगर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, धौरहरा
142—लखीमपुर	1. नायब तहसीलदार, अतिरिक्त, खीरी पैला
	2. नायब तहसीलदार, खीरी पैला
	3. नायब तहसीलदार, खीरी (तहसील—लखीमपुर)
	4. खण्ड विकास अधिकारी, लखीमपुर
	5. खण्ड विकास अधिकारी, नकहा
143—कास्ता (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मितौली
	2. नायब तहसीलदार, कस्ता
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मितौली
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बेहजम
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मितौली
144—मोहम्मदी	1. तहसीलदार, मोहम्मदी
	2. नायब तहसीलदार, मोहम्मदी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मोहम्मदी
	4. खण्ड विकास अधिकारी, पसगवां
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पसगवां
145—महोली	1. तहसीलदार, महोली
	2. खण्ड विकास अधिकारी, महोली
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, महोली
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पिसावां
146—सीतापुर	1. तहसीलदार, सीतापुर
	2. नायब तहसीलदार, हरगांव
	3. खण्ड विकास अधिकारी, खैराबाद
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, खैराबाद

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
147—हरगांव (अ0जा0)	1. खण्ड विकास अधिकारी, एलिया 2. खण्ड विकास अधिकारी, हरगांव 3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हरगांव 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, परसेण्डी
148—लहरपुर	1. तहसीलदार, लहरपुर 2. खण्ड विकास अधिकारी, लहरपुर 3. नायब तहसीलदार, लहरपुर 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लहरपुर
149—बिसवां	1. तहसीलदार, बिसवां 2. खण्ड विकास अधिकारी, बिसवां 3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिसवां 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सकरन
150—सेवता	1. खण्ड विकास अधिकारी, रेउसा 2. चकबन्दी अधिकारी, बिसवां 3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रेउसा 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पहला
151—महमूदाबाद	1. तहसीलदार, महमूदाबाद 2. खण्ड विकास अधिकारी, पहला 3. खण्ड विकास अधिकारी, महमूदाबाद 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, महमूदाबाद
152—सिधौली (अ0जा0)	1. तहसीलदार, सिधौली 2. खण्ड विकास अधिकारी, सिधौली 3. खण्ड विकास अधिकारी, कसमण्डा 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिधौली
153—मिश्रिख (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मिश्रिख 2. खण्ड विकास अधिकारी, मिश्रिख 3. खण्ड विकास अधिकारी, मछरेहटा 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मिश्रिख
154—सवायजपुर	1. तहसीलदार, सवायजपुर 2. खण्ड विकास अधिकारी, भरखनी 3. खण्ड विकास अधिकारी, हरपालपुर
155—शाहाबाद	1. तहसीलदार, शाहाबाद 2. खण्ड विकास अधिकारी, शाहाबाद 3. खण्ड विकास अधिकारी, टोडरपुर
156—हरदोई	1. तहसीलदार सदर, हरदोई 2. खण्ड विकास अधिकारी, सुरसा 3. नायब तहसीलदार, बावन
157—गोपामऊ (अ0जा0)	1. चकबन्दी अधिकारी, पिहानी 2. खण्ड विकास अधिकारी, टड़ियावां 3. खण्ड विकास अधिकारी, पिहानी
158—साण्डी (अ0जा0)	1. नायब तहसीलदार, सुरसा 2. खण्ड विकास अधिकारी, साण्डी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. सहायक चकबन्दी अधिकारी, टड़ियावां
159—बिलग्राम—मल्लांवा	1. तहसीलदार, बिलग्राम
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बिलग्राम
	3. खण्ड विकास अधिकारी, माधौगंज
160—बालामऊ (अ0जा0)	1. चकबन्दी अधिकारी, सण्डीला
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बेहन्दर
	3. नायब तहसीलदार, कछौना
161—सण्डीला	1. तहसीलदार, सण्डीला
	2. खण्ड विकास अधिकारी, भरावन
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सण्डीला
162—बांगरमऊ	1. तहसीलदार, बांगरमऊ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, गंजमुरादाबाद
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बांगरमऊ
163—सफीपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, सफीपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सफीपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मियागंज
164—मोहान (अ0जा0)	1. तहसीलदार, हसनगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हसनगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, औरास
165—उन्नाव	1. तहसीलदार, उन्नाव
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दरपुर सरोसी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सिकंदरपुर करन
166—भगवन्त नगर	1. तहसीलदार, बीघापुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बीघापुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सुमेरपुर
167—पुरवा	1. तहसीलदार, पुरवा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, असोहा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, पुरवा
168—मलिहाबाद (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मलिहाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मलिहाबाद
	3. खण्ड विकास अधिकारी, माल
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मलिहाबाद
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, माल
169—बक्शी का तालाब	1. तहसीलदार, बक्शी का तालाब
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बक्शी का तालाब
	3. खण्ड विकास अधिकारी, चिनहट
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्शी का तालाब
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चिनहट
170—सरोजनीनगर	1. तहसीलदार, सरोजनीनगर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरोजनीनगर
	4. जिला सहायक निबंधक एवं सहकारी समितियां, लखनऊ

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	5. जिला युवा कल्याण अधिकारी, लखनऊ
171—लखनऊ पश्चिम	1. खण्ड विकास अधिकारी, काकोरी
	2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, काकोरी
	3. जिला कृषि रक्षा अधिकारी, लखनऊ
	4. जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ
	5. भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ
172—लखनऊ उत्तर	1. चकबन्दी अधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ
	2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-3
	3. जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ
	4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य), लखनऊ
	5. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ
173—लखनऊ पूर्व	1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-2
	2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ
	3. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ
	4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ
	5. जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, लखनऊ
174—लखनऊ मध्य	1. तहसीलदार, सदर, लखनऊ
	2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-4
	3. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, लखनऊ
	4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ
	5. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, लखनऊ
175—लखनऊ कैन्टोनमेंट	1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र जोन-1
	2. जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, लखनऊ
	3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ
	4. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), लखनऊ
	5. उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, लखनऊ
176—मोहनलालगंज (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मोहनलालगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मोहनलालगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गोसाईगंज
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मोहनलालगंज
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोसाईगंज
177—बछरावां (अ0जा0)	1. तहसीलदार, महाराजगंज
	2. नायब तहसीलदार, बछरावां
	3. खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बछरावां
178—तिलोई	1. तहसीलदार, तिलोई
	2. खण्ड विकास अधिकारी, तिलोई
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बहादुरपुर
179—हरचन्दपुर	1. तहसीलदार, लालगंज
	2. नायब तहसीलदार, सरेनी
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सतांव
	4. खण्ड विकास अधिकारी, हरचन्दपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
180—रायबरेली	1. तहसीलदार, सदर, रायबरेली
	2. नायब तहसीलदार, पश्चिमी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, राही
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, राही
181—सलोन (अ0जा0)	1. तहसीलदार, सलोन
	2. नायब तहसीलदार, सलोन
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सलोन
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, छतोह
182—सरेनी	1. तहसीलदार, डलमऊ
	2. नायब तहसीलदार, डलमऊ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सरेनी
	4. खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज
	5. खण्ड विकास अधिकारी, डलमऊ
183—ऊँचाहार	1. तहसीलदार, ऊँचाहार
	2. नायब तहसीलदार, जगतपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, ऊँचाहार
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, ऊँचाहार
184—जगदीशपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मुसाफिरखाना
	2. तहसीलदार, सुलतानपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मुसाफिरखाना
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बाजारशुकुल
185—गौरीगंज	1. तहसीलदार, गौरीगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, गौरीगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, जामो
186—अमेठी	1. तहसीलदार, अमेठी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, अमेठी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, संग्रामपुर
187—इसौली	1. तहसीलदार, बल्दीराय
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बल्दीराय
	3. खण्ड विकास अधिकारी, कुड़वार
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कुड़वार
188—सुल्तानपुर	1. तहसीलदार, सदर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, दूबेपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, कूरेभार
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कूरेभार
189—सदर	1. तहसीलदार, जयसिंहपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, जयसिंहपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मोतिगरपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जयसिंहपुर
190—लम्भुआ	1. तहसीलदार, लम्भुआ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, लम्भुआ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, भदैया

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, लम्मुआ
191—कादीपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, कादीपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कादीपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, अखण्डनगर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कादीपुर
192—कायमगंज (अ0जा0)	1. तहसीलदार, कायमगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कायमगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कायमगंज
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, शमसाबाद
193—अमृतपुर	1. तहसीलदार, अमृतपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, राजेपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, शमसाबाद
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, राजेपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नबाबगंज
194—फर्रुखाबाद	1. नायब तहसीलदार, पहाडा, फर्रुखाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मोहम्मदाबाद
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बढपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बढपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, फर्रुखाबाद
195—भोजपुर	1. तहसीलदार, फर्रुखाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज
	3. चकबन्दी अधिकारी, खिमसेपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मोहम्मदाबाद
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कमालगंज
196—छिबरामऊ	1. तहसीलदार, छिबरामऊ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, छिबरामऊ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, तालग्राम
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, छिबरामऊ
	5. नायब तहसीलदार, छिबरामऊ
197—तिर्वा	1. तहसीलदार, तिर्वा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, उमर्दा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सौरिख
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, उमर्दा
	5. नायब तहसीलदार, तिर्वा
198—कन्नौज (अ0जा0)	1. तहसीलदार, कन्नौज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कन्नौज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गुगरापुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कन्नौज
	5. नायब तहसीलदार, कन्नौज
199—जसवन्तनगर	1. तहसीलदार, जसवन्तनगर
	2. तहसीलदार, सैफई

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. तहसीलदार, ताखा
200—इटावा	1. तहसीलदार, इटावा
	2. नायब तहसीलदार (पचार), सदर, इटावा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बसरेहर
201—भरथना (अ0जा0)	1. तहसीलदार, भरथना
	2. तहसीलदार, चकरनगर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, महेवा
202—बिधूना	1. तहसीलदार, बिधूना
	2. नायब तहसीलदार, बिधूना
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सहार
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बिधूना
203—दिबियापुर	1. तहसीलदार, अजीतमल
	2. नायब तहसीलदार, अजीतमल
	3. नायब तहसीलदार, अछल्दा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, अजीतमल
204—औरैया (अ0जा0)	1. तहसीलदार, औरैया
	2. नायब तहसीलदार, औरैया
	3. खण्ड विकास अधिकारी, औरैया
	4. चकबन्दी अधिकारी, हिरमी एरवा
205—रसूलाबाद (अ0जा0)	1. तहसीलदार, रसूलाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, रसूलाबाद
	3. खण्ड विकास अधिकारी, झीझक
206—अकबरपुर रनियां	1. तहसीलदार, अकबरपुर
	2. तहसीलदार, मैथा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मैथा
207—सिकन्दरा	1. तहसीलदार, सिकन्दरा
	2. तहसीलदार, डेरापुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, राजपुर
208—भोगनीपुर	1. तहसीलदार, भोगनीपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सरवनखेड़ा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, अमरौधा
209—बिल्हौर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, बिल्हौर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बिल्हौर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, चौबेपुर
210—बिटूर	1. तहसीलदार सदर
	2. चकबन्दी अधिकारी, सदर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, विधनू
211—कल्याणपुर	1. जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कानपुर नगर
	2. उपायुक्त, उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केन्द्र, कानपुर नगर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, कल्याणपुर
212—गोविन्दनगर	1. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर
	3. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, खण्ड-17, कानपुर नगर
213-सीसामऊ	1. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कानपुर नगर
	2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, कानपुर नगर
	3. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, सचल दल, इकाई-7, कानपुर नगर
214-आर्य नगर	1. जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर नगर
	2. जिला प्रोबेशन अधिकारी, कानपुर नगर
	3. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, खण्ड-1, कानपुर नगर
215-किदवई नगर	1. जिला कृषि अधिकारी, कानपुर नगर
	2. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, खण्ड-20, कानपुर नगर
	3. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, खण्ड-10, कानपुर नगर
216-कानपुर कैन्टोनमेंट	1. चकबन्दी अधिकारी, घाटमपुर
	2. भूमि संरक्षण अधिकारी, कानपुर नगर
	3. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, खण्ड-22, कानपुर नगर
217-महराजपुर	1. तहसीलदार, नर्वल
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सरसौल
	3. सहायक निदेशक, मत्स्य, कानपुर नगर
218-घाटमपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, घाटमपुर
	2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, घाटमपुर
219-माधौगढ़	1. तहसीलदार, माधौगढ़
	2. तहसीलदार, कोंच
220-कालपी	1. तहसीलदार, कालपी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, महेवा
221-उरई (अ0जा0)	1. तहसीलदार, उरई
	2. खण्ड विकास अधिकारी, डकोर
222-बबीना	1. उपजिलाधिकारी,(न्यायिक), मोंठ
	2. तहसीलदार, मोंठ
	3. खण्ड विकास अधिकारी, चिरगांव
	4. खण्ड विकास अधिकारी, मोंठ
	5. नायब तहसीलदार, मोंठ
223-झांसी नगर	1. उपजिलाधिकारी,(न्यायिक), झांसी
	2. तहसीलदार, झांसी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बडागांव
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बबीना
	5. नायब तहसीलदार, झांसी
224-मऊरानीपुर (अ0जा0)	1. उपजिलाधिकारी,(न्यायिक), मऊरानीपुर
	2. तहसीलदार, मऊरानीपुर
	3. तहसीलदार, टहरौली
	4. खण्ड विकास अधिकारी, मऊरानीपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	5. खण्ड विकास अधिकारी, बंगरा
225—गरौठा	1. उपजिलाधिकारी, (न्यायिक), गरौठा
	2. तहसीलदार, गरौठा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बामौर
	4. खण्ड विकास अधिकारी, गुरसराय
	5. नायब तहसीलदार, गरौठा
226—ललितपुर	1. उप जिलाधिकारी, तालबेहट
	2. तहसीलदार, ललितपुर
	3. तहसीलदार, तालबेहट
227—महरौनी (अ0जा0)	1. तहसीलदार, महरौनी
	2. तहसीलदार, मड़ावरा
	3. तहसीलदार, पाली ।
228—हमीरपुर	1. तहसीलदार, हमीरपुर
	2. तहसीलदार, मौदहा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, कुरारा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, मौदहा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुमेरपुर
229—राठ (अ0जा0)	1. तहसीलदार, सरीला
	2. तहसीलदार, राठ
	3. तहसीलदार, मौदहा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, मुस्करा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, राठ
230—महोबा	1. तहसीलदार, महोबा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कबरई
231—चरखारी	1. तहसीलदार, चरखारी
	2. तहसीलदार, कुलपहाड़
232—तिन्दवारी	1. तहसीलदार, पैलानी
	2. तहसीलदार, बांदा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, तिंदवारी
	4. खण्ड विकास अधिकारी, जसपुरा
233—बबेरू	1. तहसीलदार, बबेरू
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बबेरू
	3. खण्ड विकास अधिकारी, कमासिन
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बिसण्डा
234—नरैनी (अ0जा0)	1. तहसीलदार, नरैनी
	2. तहसीलदार, अतर्रा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, नरैनी
	4. खण्ड विकास अधिकारी, महुआ
235—बांदा	1. तहसीलदार, बांदा
	2. तहसीलदार, अतर्रा
	3. तहसीलदार, नरैनी
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बड़ोखरखुर्द

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
236—चित्रकूट	1. तहसीलदार, कर्वी
	2. तहसीलदार, राजापुर
237—मानिकपुर	1. तहसीलदार, मऊ
	2. तहसीलदार, मानिकपुर
238—जहानाबाद	1. तहसीलदार, बिन्दकी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, देवमई
	3. खण्ड विकास अधिकारी, अमौली
239—बिन्दकी	1. नायब तहसीलदार, बिन्दकी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, खजुहा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मलवां
240—फतेहपुर	1. नायब तहसीलदार, नगर, फतेहपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, भिटौरा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, हसवा
241—अयाह शाह	1. तहसीलदार, फतेहपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, असोथर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बहुआ
242—हुसैनगंज	1. तहसीलदार, खागा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, ऐरायां
	3. खण्ड विकास अधिकारी, हथगाम
243—खागा (अ0जा0)	1. नायब तहसीलदार, ऐरायां
	2. खण्ड विकास अधिकारी, धाता
	3. खण्ड विकास अधिकारी, विजयीपुर
244—रामपुर खास	1. तहसीलदार, लालगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर संग्रामगढ़
	4. चकबन्दी अधिकारी, सांगीपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लालगंज
245—बाबागंज (अ0जा0)	1. तहसीलदार, कुण्डा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बाबागंज
	3. नायब तहसीलदार, कुण्डा
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिहार
246—कुण्डा	1. खण्ड विकास अधिकारी, कुण्डा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कालाकांकर
	3. चकबन्दी अधिकारी, कुण्डा
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कुण्डा
247—विश्वनाथगंज	1. तहसीलदार सदर, प्रतापगढ़
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मान्धाता
	3. चकबन्दी अधिकारी, सदर द्वितीय
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणपुर
248—प्रतापगढ़	1. खण्ड विकास अधिकारी, सण्डवाचन्द्रिका
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सदर
	3. चकबन्दी अधिकारी, सदर प्रथम

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मंगरौरा
249—पट्टी	1. तहसीलदार, पट्टी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, पट्टी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बाबाबेलखरनाथ धाम
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, आसपुर देवसरा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाबाबेलखरनाथ धाम
250—रानीगंज	1. तहसीलदार, रानीगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, गौरा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, शिवगढ़
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गौरा
251—सिराथू	1. तहसीलदार, सिराथू
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सिराथू
252—मंझनपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मंझनपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मंझनपुर
253—चायल	1. तहसीलदार, चायल
	2. खण्ड विकास अधिकारी, नेवादा
254—फाफामऊ	1. तहसीलदार, सोरांव
	2. खण्ड विकास अधिकारी, होलागढ़
	3. खण्ड विकास अधिकारी, श्रृंगवेरपुर धाम
	4. नायब तहसीलदार(नवाबगंज) सोरांव
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कौड़िहार
255—सोरांव (अ0जा0)	1. खण्ड विकास अधिकारी, मऊआइमा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सोरांव
	3. चकबन्दी अधिकारी, सोरांव
	4. नायब तहसीलदार(मीर्जापुर चौहारी) सोरांव
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सोरांव
256—फूलपुर	1. तहसीलदार, फूलपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, फूलपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सहसों
	4. नायब तहसीलदार, मध्य फूलपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बहादुरपुर
257—प्रतापपुर	1. तहसीलदार, हण्डिया
	2. खण्ड विकास अधिकारी, प्रतापपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, धनपुर
	4. नायब तहसीलदार, प्रतापपुर हण्डिया
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्रतापपुर
258—हण्डिया	1. खण्ड विकास अधिकारी, सैदाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हण्डिया
	3. चकबन्दी अधिकारी, हण्डिया
	4. नायब तहसीलदार, सैदाबाद हण्डिया
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हण्डिया
259—मेजा	1. तहसीलदार, मेजा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मेजा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, माण्डा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, उरुवा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, उरुवा
260—करछना	1. खण्ड विकास अधिकारी, चाका
	2. खण्ड विकास अधिकारी, करछना
	3. खण्ड विकास अधिकारी, कौंधियारा
	4. नायब तहसीलदार, पनासा, करछना
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, करछना
261—इलाहाबाद पश्चिम	1. खण्ड विकास अधिकारी, बहादुरपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बहरिया
	3. खण्ड विकास अधिकारी, भगवतपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर प्रथम, प्रयागराज
	5. नायब तहसीलदार, राजकीय आस्थान
262—इलाहाबाद उत्तर	1. तहसीलदार, सदर, प्रयागराज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कौड़हार
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रयागराज
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर द्वितीय, प्रयागराज
	5. नायब तहसीलदार, व्यापार कर
263—इलाहाबाद दक्षिण	1. तहसीलदार, करछना
	2. चकबन्दी अधिकारी सदर, प्रयागराज
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर तृतीय, प्रयागराज
	4. नायब तहसीलदार, सीलिंग
	5. नायब तहसीलदार, (नैनी) करछना
264—बारा (अ0जा0)	1. तहसीलदार, बारा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, शंकरगढ़
	3. खण्ड विकास अधिकारी, जसरा
	4. नायब तहसीलदार, बारा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जसरा
265—कोराँव (अ0जा0)	1. तहसीलदार, कोराँव
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कोराँव
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कोराँव
	4. नायब तहसीलदार, बड़ोखर कोराँव
	5. नायब तहसीलदार, डइया कोराँव
266—कुर्सी	1. तहसीलदार, फतेहपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, निन्दूरा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सूरतगंज
267—राम नगर	1. तहसीलदार, रामनगर
	2. तहसीलदार, सिरौलीगौसपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
268—बाराबंकी	1. तहसीलदार (न्यायिक), नवाबगंज 2. खण्ड विकास अधिकारी, बंकी 3. खण्ड विकास अधिकारी, देवा 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवा
269—जैदपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, नवाबगंज 2. खण्ड विकास अधिकारी, मसौली 3. खण्ड विकास अधिकारी, हरख 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिद्धौर
270—दरियाबाद	1. तहसीलदार, रामसनेहीघाट 2. खण्ड विकास अधिकारी, दरियाबाद 3. खण्ड विकास अधिकारी, बनीकोडर 4. खण्ड विकास अधिकारी, पूरेडलई
271—रुदौली	1. तहसीलदार, रुदौली 2. तहसीलदार, रामसनेहीघाट 3. नायब तहसीलदार, रुदौली 4. खण्ड विकास अधिकारी, रुदौली 5. खण्ड विकास अधिकारी, मवई
272—हैदरगढ़ (अ0जा0)	1. तहसीलदार, हैदरगढ़ 2. खण्ड विकास अधिकारी, त्रिवेदीगंज 3. खण्ड विकास अधिकारी, हैदरगढ़ 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हैदरगढ़
273—मिल्कीपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मिल्कीपुर 2. नायब तहसीलदार, मिल्कीपुर 3. नायब तहसीलदार, अमानीगंज 4. खण्ड विकास अधिकारी, हरिगंजनगंज 5. खण्ड विकास अधिकारी, मिल्कीपुर
274—बीकापुर	1. तहसीलदार, सोहावल 2. तहसीलदार, बीकापुर 3. नायब तहसीलदार, रौनाही 4. नायब तहसीलदार, मसौधा 5. खण्ड विकास अधिकारी, सोहावल 6. खण्ड विकास अधिकारी, बीकापुर
275—अयोध्या	1. तहसीलदार सदर, अयोध्या 2. नायब तहसीलदार, अयोध्या 3. नायब तहसीलदार, गोषाईगंज 4. खण्ड विकास अधिकारी, पूराबाजार 5. खण्ड विकास अधिकारी, मसौधा
276—गोशाईगंज	1. तहसीलदार, बीकापुर 2. तहसीलदार, सदर, अयोध्या 3. नायब तहसीलदार, शाहगंज 4. नायब तहसीलदार, बीकापुर 5. खण्ड विकास अधिकारी, तारून

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	6. खण्ड विकास अधिकारी, मयाबाजार
277—कटेहरी	1. तहसीलदार, भीटी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, भीटी
278—टाण्डा	1. तहसीलदार, टाण्डा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, टाण्डा
279—आलापुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, आलापुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर
280—जलालपुर	1. तहसीलदार, जलालपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, जलालपुर
281—अकबरपुर	1. तहसीलदार, अकबरपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर
282—बलहा (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मिहीपुरवा (मोतीपुर)
	2. नायब तहसीलदार, मिहीपुरवा (मोतीपुर)
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मिहीपुरवा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बलहा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मिहीपुरवा
283—नानपारा	1. तहसीलदार, नानपारा
	2. नायब तहसीलदार, बलहा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज
	4. खण्ड विकास अधिकारी, शिवपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नवाबगंज
284—मटेरा	1. तहसीलदार, सदर बहराइच
	2. चकबन्दी अधिकारी, सदर—प्रथम, बहराइच
	3. चकबन्दी अधिकारी, सदर—तृतीय, बहराइच
	4. खण्ड विकास अधिकारी, रिसिया
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रिसिया
285—महसी	1. तहसीलदार, महसी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, महसी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, तेजवापुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, महसी
286—बहराइच	1. तहसीलदार(न्यायिक), सदर बहराइच
	2. नायब तहसीलदार, सदर बहराइच
	3. खण्ड विकास अधिकारी, चित्तौरा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, हुजूरपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चित्तौरा
287—पयागपुर	1. तहसीलदार, पयागपुर
	2. नायब तहसीलदार, पयागपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, विशेश्वरगंज
	4. खण्ड विकास अधिकारी, पयागपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पयागपुर
288—कैसरगंज	1. तहसीलदार, कैसरगंज
	2. नायब तहसीलदार, कैसरगंज

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. नायब तहसीलदार, जरवल
	4. खण्ड विकास अधिकारी, फखरपुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जरवल
289—भिनगा	1. तहसीलदार, भिनगा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हरिहरपुररानी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सिरसिया
	4. खण्ड विकास अधिकारी, जमुनहा
290—श्रावस्ती	1. तहसीलदार, इकौना
	2. तहसीलदार, जमुनहा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गिलौला
	4. खण्ड विकास अधिकारी, इकौना
291—तुलसीपुर	1. तहसीलदार, तुलसीपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हरैया सतधरवा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, तुलसीपुर
292—गैसड़ी	1. खण्ड विकास अधिकारी, पचपेड़वा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, गैसड़ी
	3. नायब तहसीलदार, तुलसीपुर
293—उतरौला	1. तहसीलदार, उतरौला
	2. खण्ड विकास अधिकारी, उतरौला
	3. नायब तहसीलदार, उतरौला
294—बलरामपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, बलरामपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बलरामपुर
	3. नायब तहसीलदार, बलरामपुर
295—मेहनौन	1. तहसीलदार, गोण्डा
	2. चकबन्दी अधिकारी, गोण्डा
296—गोंडा	1. तहसीलदार (न्यायिक), गोण्डा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, पंडरीकृपाल
297—कटरा बाजार	1. तहसीलदार, करनैलगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कटराबाजार
298—कर्नलगंज	1. खण्ड विकास अधिकारी, करनैलगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हलधरमऊ
299—तरबगंज	1. तहसीलदार, तरबगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, तरबगंज
300—मनकापुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मनकापुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर
301—गौरा	1. खण्ड विकास अधिकारी, वजीरगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बभनजोत
302—शोहरतगढ़	1. तहसीलदार, शोहरतगढ़
	2. नायब तहसीलदार, शोहरतगढ़
	3. खण्ड विकास अधिकारी, शोहरतगढ़
303—कपिलवस्तु (अ0जा0)	1. तहसीलदार, नौगढ़
	2. नायब तहसीलदार, नौगढ़

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. खण्ड विकास अधिकारी, नौगढ़
304—बांसी	1. तहसीलदार, बांसी
	2. नायब तहसीलदार, बांसी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बांसी
305—इटवा	1. तहसीलदार, इटवा
	2. नायब तहसीलदार, इटवा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, इटवा
306—डुमरियागंज	1. तहसीलदार, डुमरियागंज
	2. नायब तहसीलदार, डुमरियागंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, डुमरियागंज
307—हरैया	1. खण्ड विकास अधिकारी, हरैया
	2. खण्ड विकास अधिकारी, विक्रमजोत
	3. खण्ड विकास अधिकारी, परसरामपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विक्रमजोत
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, परसरामपुर
308—कप्तानगंज	1. खण्ड विकास अधिकारी, कप्तानगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, गौर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, दुबौलिया
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कप्तानगंज
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, दुबौलिया
309—रुधौली	1. खण्ड विकास अधिकारी, सल्टौआ गोपालपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, रुधौली
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सल्टौआ
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर
310—बस्ती सदर	1. नायब तहसीलदार, सदर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बस्ती सदर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, साऊघाट
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, साऊघाट
311—महादेवा (अ0जा0)	1. खण्ड विकास अधिकारी, बहादुरपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कुदरहा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बनकटी
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बनकटी
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कुदरहा
312—मेंहदावल	1. तहसीलदार, मेंहदावल
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मेंहदावल
313—खलीलाबाद	1. तहसीलदार, खलीलाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, खलीलाबाद
314—धनघटा (अ0जा0)	1. तहसीलदार, धनघटा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हैसर बाजार
315—फरेन्दा	1. तहसीलदार, फरेन्दा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. खण्ड विकास अधिकारी, फरेन्दा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बृजमनगंज
	4. नायब तहसीलदार, फरेन्दा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरेन्दा
316—नौतनवा	1. तहसीलदार, नौतनवां
	2. खण्ड विकास अधिकारी, लक्ष्मीपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, नौतनवां
	4. नायब तहसीलदार, नौतनवां
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नौतनवां
317—सिसवां	1. तहसीलदार, निचलौल
	2. खण्ड विकास अधिकारी, निचलौल
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सिसवां
	4. नायब तहसीलदार, निचलौल
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, निचलौल
318—महराजगंज (अ0जा0)	1. खण्ड विकास अधिकारी, सदर महराजगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, घुघली
	3. नायब तहसीलदार, सदर महराजगंज
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सदर महराजगंज
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, घुघली
319—पनियरा	1. तहसीलदार सदर महराजगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, परतावल
	3. खण्ड विकास अधिकारी, पनियरा
	4. नायब तहसीलदार, घुघली
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, परतावल
320—कैम्पियरगंज	1. तहसीलदार, कैम्पियरगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कैम्पियरगंज
	3. चकबन्दी अधिकारी, कैम्पियरगंज
321—पिपराइच	1. खण्ड विकास अधिकारी, भटहट
	2. खण्ड विकास अधिकारी, पिपराइच
	3. चकबन्दी अधिकारी, गोपलापुर
322—गोरखपुर शहर	1. तहसीलदार सदर, गोरखपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, चरगांवा
	3. चकबन्दी अधिकारी, रूस्तमपुर
323—गोरखपुर ग्रामीण	1. खण्ड विकास अधिकारी, खोराबार
	2. तहसीलदार(न्यायिक), सदर, गोरखपुर
	3. चकबन्दी अधिकारी, दीवान बाजार
324—सहजनवा	1. तहसीलदार, सहजनवा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सहजनवा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, पिपरौली
325—खजनी (अ0जा0)	1. तहसीलदार, खजनी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, खजनी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बेलघाट

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
326—चौरी-चौरा	1. तहसीलदार, चौरीचौरा 2. चकबन्दी अधिकारी, चौरीचौरा 3. खण्ड विकास अधिकारी, सरदार नगर
327—बांसगांव (अ0जा0)	1. तहसीलदार, बांसगांव 2. तहसीलदार (न्यायिक), बांसगांव 3. खण्ड विकास अधिकारी, बांसगांव
328—चिल्लूपार	1. तहसीलदार, गोला 2. खण्ड विकास अधिकारी, गोला 3. खण्ड विकास अधिकारी, बड़हलगंज
329—खड्डा	1. तहसीलदार, खड्डा 2. खण्ड विकास अधिकारी, खड्डा 3. खण्ड विकास अधिकारी, नेबुआ नौरंगिया 4. नायब तहसीलदार, खड्डा
330—पडरौना	1. तहसीलदार, पडरौना 2. खण्ड विकास अधिकारी, पडरौना 3. खण्ड विकास अधिकारी, विशुनपुरा 4. नायब तहसीलदार, पडरौना
331—तमकुही राज	1. खण्ड विकास अधिकारी, तमकुहीराज 2. नायब तहसीलदार, तरया तमकुहीराज 3. खण्ड विकास अधिकारी, दुदही 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, तमकुहीराज
332—फाजिलनगर	1. तहसीलदार, तमकुहीराज 2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, दुदही 3. नायब तहसीलदार, दुदही, तह0 तमकुहीराज 4. नायब तहसीलदार, फाजिलनगर
333—कुशीनगर	1. तहसीलदार, कसया 2. नायब तहसीलदार, कसया 3. चकबन्दी अधिकारी, कसया 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कसया
334—हाटा	1. तहसीलदार, हाटा 2. नायब तहसीलदार, हाटा 3. खण्ड विकास अधिकारी, हाटा 4. खण्ड विकास अधिकारी, मोतीचक
335—रामकोला (अ0जा0)	1. तहसीलदार, कप्तानगंज 2. नायब तहसीलदार, कप्तानगंज 3. खण्ड विकास अधिकारी, रामकोला 4. खण्ड विकास अधिकारी, कप्तानगंज
336—रुद्रपुर	1. तहसीलदार, रुद्रपुर 2. खण्ड विकास अधिकारी, रुद्रपुर 3. खण्ड विकास अधिकारी, भलुअनी
337—देवरिया	1. तहसीलदार, देवरिया 2. खण्ड विकास अधिकारी, देवरिया

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. खण्ड विकास अधिकारी, गौरीबाजार
338—पथरदेवा	1. खण्ड विकास अधिकारी, देसही देवरिया
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बैतालपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, पथरदेवा
339—रामपुर कारखाना	1. खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर कारखाना
	2. खण्ड विकास अधिकारी, भटनी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, तरकुलवा
340—भाटपार रानी	1. तहसीलदार, भाटपार रानी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, बनकटा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, भाटपार रानी
341—सलेमपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, सलेमपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सलेमपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, लार
342—बरहज	1. तहसीलदार, बरहज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, भागलपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बरहज
343—अतरौलिया	1. तहसीलदार, बूढनपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, कोयलसा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, अतरौलिया
	4. नायब तहसीलदार, बूढनपुर
344—गोपालपुर	1. तहसीलदार, सगड़ी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बिलरियागंज
	4. नायब तहसीलदार, महाराजगंज
345—सगड़ी	1. तहसीलदार (न्यायिक), सगड़ी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, हरैया
	3. खण्ड विकास अधिकारी, अजमतगढ़
	4. नायब तहसीलदार, अजमतगढ़
346—मुबारकपुर	1. तहसीलदार सदर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सठियाँव
	3. खण्ड विकास अधिकारी, जहानागंज
	4. नायब तहसीलदार, मुबारकपुर
347—आजमगढ़	1. तहसीलदार(न्यायिक) सदर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, पल्हनी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, रानी की सराय
	4. नायब तहसीलदार, नगर
348—निजामाबाद	1. तहसीलदार, निजामाबाद
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मिर्जापुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, तहबरपुर
	4. नायब तहसीलदार, निजामाबाद
349—फूलपुर—पर्व	1. तहसीलदार, फूलपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, फूलपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. खण्ड विकास अधिकारी, पवई
	4. नायब तहसीलदार, फूलपुर
350—दीदारगंज	1. तहसीलदार, मार्टीनगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मार्टीनगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मुहम्मदपुर
	4. नायब तहसीलदार, मार्टीनगंज
351—लालगंज (अ0जा0)	1. तहसीलदार, लालगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, पल्हना
	4. नायब तहसीलदार, लालगंज
352—मैंहनगर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मैंहनगर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मैंहनगर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, तरवां
	4. नायब तहसीलदार, मैंहनगर
353—मधुबन	1. तहसीलदार, मधुबन
	2. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर मण्डाव
	3. खण्ड विकास अधिकारी, दोहरीघाट
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर मण्डाव
	5. नायब तहसीलदार, मधुबन
354—घोसी	1. तहसीलदार, घोसी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, घोसी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बडरांव
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, घोसी
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बडरांव
355—मुहम्मदाबाद गोहना (अ0जा0)	1. तहसीलदार, मुहम्मदाबाद गोहना
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मुहम्मदाबाद गोहना
	3. खण्ड विकास अधिकारी, रानीपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रानीपुर
	5. नायब तहसीलदार, मुहम्मदाबाद गोहना
356—मऊ	1. तहसीलदार, सदर, मऊ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, रतनपुरा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, कोपागंज
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कोपागंज
	5. नायब तहसीलदार, सदर, मऊ
357—बेल्थरा रोड (अ0जा0)	1. तहसीलदार, बेल्थरा रोड
	2. नायब तहसीलदार, सीयर
	3. नायब तहसीलदार, भीमपुरा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, सीयर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सीयर
358—रसड़ा	1. तहसीलदार, रसड़ा
	2. नायब तहसीलदार, रसड़ा
	3. नायब तहसीलदार, चिलकहर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	4. खण्ड विकास अधिकारी, रसड़ा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, रसड़ा
359—सिकन्दरपुर	1. तहसीलदार, सिकन्दरपुर
	2. नायब तहसीलदार, मनियर
	3. नायब तहसीलदार, सिकन्दरपुर
	4. खण्ड विकास अधिकारी, नवानगर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नवानगर
360—फेफना	1. तहसीलदार, बलिया
	2. नायब तहसीलदार, गड़वार
	3. नायब तहसीलदार, गड़हा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, गड़वार
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गड़वार
361—बलिया नगर	1. तहसीलदार(न्यायिक), बलिया
	2. चकबन्दी अधिकारी, सदर, बलिया
	3. नायब तहसीलदार, नगर, बलिया
	4. खण्ड विकास अधिकारी, हनुमानगंज
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, हनुमानगंज
362—बांसडीह	1. तहसीलदार, बांसडीह
	2. नायब तहसीलदार, रेवती
	3. नायब तहसीलदार, बांसडीह
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बांसडीह
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बांसडीह
363—बैरिया	1. तहसीलदार, बैरिया
	2. नायब तहसीलदार, बैरिया
	3. नायब तहसीलदार, सुरेमनपुर
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बैरिया
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बैरिया
364—बदलापुर	1. तहसीलदार, बदलापुर
	2. नायब तहसीलदार, बदलापुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बदलापुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बदलापुर
365—शाहगंज	1. तहसीलदार, शाहगंज
	2. नायब तहसीलदार, कस्बा शाहगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, शाहगंज
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुईथाकला
366—जौनपुर	1. तहसीलदार सदर, जौनपुर
	2. नायब तहसीलदार, सदर जौनपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, धर्मापुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बक्शा
367—मल्हनी	1. नायब तहसीलदार, रारी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सिकरारा
	3. नायब तहसीलदार, खपरहौ

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिकरारा
368—मुंगरा बादशाहपुर	1. तहसीलदार, मछलीशहर
	2. नायब तहसीलदार, मुंगरा
	3. चकबन्दी अधिकारी, रामनगर भडसरा—प्रथम
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुंगराबादशाहपुर
369—मछलीशहर (अ0जा0)	1. नायब तहसीलदार (कस्बा), मछलीशहर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, मछलीशहर
	3. नायब तहसीलदार, रामनगर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मछलीशहर
370—मडियाहूँ	1. तहसीलदार, मडियाहूँ
	2. खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर
	3. नायब तहसीलदार (कस्बा), मडियाहूँ
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मडियाहूँ
371—जफराबाद	1. तहसीलदार न्यायिक, सदर, जौनपुर
	2. नायब तहसीलदार, बयालसी
	3. चकबन्दी अधिकारी, रामनगर भडसरा—द्वितीय
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जलालपुर
372—केराकत (अ0जा0)	1. तहसीलदार, केराकत
	2. नायब तहसीलदार, डोभी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, डोभी
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, केराकत
373—जखनिया (अ0जा0)	1. तहसीलदार, जखनियां
	2. खण्ड विकास अधिकारी, जखनियां
	3. नायब तहसीलदार, सादात
	4. नायब तहसीलदार, मनिहारी
374—सैदपुर (अ0जा0)	1. तहसीलदार, सैदपुर
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सैदपुर
	3. नायब तहसीलदार, सैदपुर
	4. नायब तहसीलदार, नन्दगंज
375—गाजीपुर	1. चकबन्दी अधिकारी, सदर, गाजीपुर
	2. चकबन्दी अधिकारी, नन्दगंज
	3. नायब तहसीलदार, नगर, गाजीपुर
	4. नायब तहसीलदार, करण्डा
376—जंगीपुर	1. तहसीलदार, सदर, गाजीपुर
	2. नायब तहसीलदार, बिरनों
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बिरनों
	4. खण्ड विकास अधिकारी, सदर, गाजीपुर
377—जहूराबाद	1. तहसीलदार, कासिमाबाद
	2. नायब तहसीलदार, कासिमाबाद
	3. नायब तहसीलदार, जहूराबाद
	4. खण्ड विकास अधिकारी, कासिमाबाद
378—मोहम्मदाबाद	1. तहसीलदार, मोहम्मदाबाद

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	2. नायब तहसीलदार, पूर्वी मोहम्मदाबाद
	3. नायब तहसीलदार, पश्चिमी मोहम्मदाबाद
	4. नायब तहसीलदार, मध्य मोहम्मदाबाद
379—जमानियां	1. तहसीलदार, जमानियां
	2. तहसीलदार, सेवराई
	3. नायब तहसीलदार, जमानियां
	4. नायब तहसीलदार, दिलदार नगर
380—मुगलसराय	1. तहसीलदार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली
	2. तहसीलदार, चन्दौली
	3. खण्ड विकास अधिकारी, नियमताबाद, चन्दौली
	4. खण्ड विकास अधिकारी, चन्दौली
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नियमताबाद
381—सकलडीहा	1. तहसीलदार, सकलडीहा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, सकलडीहा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, चहनियाँ
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सकलडीहा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चहनियाँ
382—सैयदराजा	1. तहसीलदार, चन्दौली
	2. तहसीलदार, सकलडीहा
	3. खण्ड विकास अधिकारी, धानापुर
	4. खण्ड विकास अधिकारी, बरहनी
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, धानापुर
383—चकिया (अ0जा0)	1. तहसीलदार, चकिया
	2. खण्ड विकास अधिकारी, चकिया
	3. खण्ड विकास अधिकारी, शहाबगंज
	4. तहसीलदार, नौगढ़
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चकिया
384—पिण्डरा	1. तहसीलदार, पिण्डरा
	2. नायब तहसीलदार, कोलअसला
	3. नायब तहसीलदार, पन्द्रह
	4. खण्ड विकास अधिकारी, पिण्डरा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, पिण्डरा
385—अजगरा (अ0जा0)	1. नायब तहसीलदार, अठगांवा
	2. चकबन्दी अधिकारी, प्रथम, वाराणसी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, हरहुआ
	4. खण्ड विकास अधिकारी, चोलापुर
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चोलापुर
386—शिवपुर	1. तहसीलदार, सदर, वाराणसी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, चिरईगँव
	3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चिरईगँव
	4. नायब तहसीलदार, जाल्हूपुर
	5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वाराणसी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
387—रोहनियां	1. नायब तहसीलदार, आराजी लाईन 2. खण्ड विकास अधिकारी, काशीविद्यापीठ 3. खण्ड विकास अधिकारी, आराजी लाईन 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, काशीविद्यापीठ 5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, आराजी लाईन
388—वाराणसी उत्तर	1. चकबन्दी अधिकारी द्वितीय, वाराणसी 2. नायब तहसीलदार, शिवपुर 3. सहायक चकबन्दी अधिकारी प्रथम, वाराणसी 4. जिला प्रोबेशन अधिकारी, वाराणसी 5. जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी
389—वाराणसी दक्षिण	1. जिला कार्यक्रम अधिकारी, वाराणसी 2. खण्ड विकास अधिकारी, बड़ागांव 3. चकबन्दी अधिकारी (तृतीय), वाराणसी 4. नायब तहसीलदार, शहर, वाराणसी 5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, दशाश्वमेध जोन
390—वाराणसी कैन्टोनमेंट	1. नायब तहसीलदार, कटेहर 2. जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी 3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, वाराणसी 4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, भेलूपुर जोन 5. सहायक चकबन्दी अधिकारी, तृतीय, वाराणसी
391—सेवापुरी	1. तहसीलदार, राजातालाब 2. नायब तहसीलदार, सेवापुरी 3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, आराजी लाइन 4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी 5. खण्ड विकास अधिकारी, सेवापुरी
392—भदोही	1. तहसीलदार, भदोही 2. खण्ड विकास अधिकारी, भदोही 3. खण्ड विकास अधिकारी, सुरियावां
393—ज्ञानपुर	1. तहसीलदार, ज्ञानपुर 2. खण्ड विकास अधिकारी, ज्ञानपुर 3. खण्ड विकास अधिकारी, डीघ
394—औराई (अ0जा0)	1. तहसीलदार, औराई 2. खण्ड विकास अधिकारी, औराई 3. भूमि संरक्षण अधिकारी, भदोही
395—छानबे (अ0जा0)	1. तहसीलदार, लालगंज 2. खण्ड विकास अधिकारी, लालगंज 3. खण्ड विकास अधिकारी, हलिया
396—मीरजापुर	1. तहसीलदार, सदर, मिर्जापुर 2. खण्ड विकास अधिकारी, सीटी 3. खण्ड विकास अधिकारी, छानबे
397—मझवां	1. खण्ड विकास अधिकारी, कोन 2. खण्ड विकास अधिकारी, पहाड़ी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
	3. खण्ड विकास अधिकारी, मझवां
398—चुनार	1. तहसीलदार, चुनार
	2. खण्ड विकास अधिकारी, नरायनपुर
	3. खण्ड विकास अधिकारी, सीखड़
399—मड़िहान	1. तहसीलदार, मड़िहान
	2. खण्ड विकास अधिकारी, पटेहरा कलां
	3. खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़
400—घोरावल	1. तहसीलदार, घोरावल
	2. खण्ड विकास अधिकारी, घोरावल
	3. खण्ड विकास अधिकारी, करमा
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, करमा
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, राबर्ट्सगंज
401—राबर्ट्सगंज	1. तहसीलदार, राबर्ट्सगंज
	2. खण्ड विकास अधिकारी, राबर्ट्सगंज
	3. खण्ड विकास अधिकारी, चतरा
	4. खण्ड विकास अधिकारी, नगवों
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चतरा
402—ओबरा (अ0ज0जा0)	1. तहसीलदार, ओबरा
	2. खण्ड विकास अधिकारी, चोपन
	3. खण्ड विकास अधिकारी, म्योरपुर
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, चोपन
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, म्योरपुर
403—दुद्धी (अ0ज0जा0)	1. तहसीलदार, दुद्धी
	2. खण्ड विकास अधिकारी, दुद्धी
	3. खण्ड विकास अधिकारी, बभनी
	4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, दुद्धी
	5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बभनी

आदेश से,
पवन दीवान,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
रत्नेश सिंह,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 600 राजपत्र—2023—(1849)—588 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 757 सा0 निर्वाचन—2023—(1850)—150 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।